



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 2016—जनवरी 15, 2016 (पौष 19, 1937)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 2016—JANUARY 15, 2016 (PAUSA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2016

सेना शाखा

सं. 10, दिनांक 23 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लै. के पद पर

निम्नलिखित तीन लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—11 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै० के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व— आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि अफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 15 मार्च 2014 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 17 मार्च 2013 विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है:—

चित्रा प्रताप (एस एस-47292वाई) ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता कविता भट्ट (एस एस-47290 एन) इंजिनियर्स, सोनम दूबे (एस एस 47319 एल) ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन))

तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता अय्यर अनुपमा गणेश (एस एस 47311वाई) इंजिनियर्स के नीचे और स्नेहा रावत (एस एस 47352एच) ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता निधी पाल (एस एस 47350 एक्स) इंजिनियर्स के नीचे।

निम्नलिखित छः जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—96 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 14 सितम्बर 2013 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 14 सितम्बर 2013 से 10 वर्ष के लिये लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:—

गोविन्द कुमार भट्ट (एस एस—46678एम), ए सी की वरिष्ठता मनु थॉमस (एस एस—46677के), आर्टी के नीचे, मुकेश सिंह बिष्ट (एस एस—46745एम), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता मनीष जारंद (एस एस—46744के), इन्फैन्ट्री के नीचे, सतेन्द्र सिंह बुंदेला (एस एस—46776एम), आर्टी की वरिष्ठता अनुग्रह ईसाक सिंघा (एस एस—46774एल), एविएशन के नीचे, पंकज कुमार सिंह (एस एस—46778एक्स), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता अनुग्रह ईसाक सिंघा (एस एस—46774 एल), एविएशन के नीचे और सरताज सिंह (एस एस—46779 ए), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता के ऊपर, रोहित कुमार ग्रेवाल (एस एस—46803एल), आर्टी की वरिष्ठता जयंत कुमार दुबे (एस एस—46799एन), एविएशन के नीचे, कीरण एन (एस एस—46810एफ), आर्टी की वरिष्ठता विवेक कुमार तिवारी (एस एस—46809 एम), इन्फैन्ट्री के नीचे।

निम्नलिखित पांच जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—97 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 15 मार्च 2014 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 15 मार्च 2014 से 10 वर्ष के लिये लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:—

नरेन्द्र कुमार सिंह (एस एस—47120के), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता विनय नारायण सिंह (एस एस—47118एम), इन्फैन्ट्री के नीचे, कुमार गौरव (एस एस—47165के), ए ओ सी की वरिष्ठता अर्पित कपिला (एस एस—47164एफ), ए एस सी के नीचे, संदीप सिंह (एस एस—47183एम), सिग्नल्स की वरिष्ठता अमीतेश दीक्षित (एस एस—47182 के), ए सी के नीचे, मेघनील बोरा (एस एस—47217पी), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता सुमित कर्णधार (एस एस—47216 एम), इन्फैन्ट्री के नीचे और उमर अली एम (एस एस—47236ए), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता माधव कुमार (एस एस—47235एक्स), इन्फैन्ट्री के नीचे।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—39 पाठ्यक्रम के हैं, लैफिटनेट के पद पर पूर्व—आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 14 सितम्बर 2013 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 16 सितम्बर 2012 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्ति के लिये दी जाती है:—

अंकित कुमार नैन (एस एस—46867 डब्ल्यू) एविएशन (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—08—अक्टूबर—12) की वरिष्ठता स्पर्श श्रीवास्तव (एस एस—46865 एल) ए ओ सी के नीचे, अभीषक यादव (एस एस 46896 एल) ए एस सी (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—08—अक्टूबर—12) की वरिष्ठता नवीन मिश्रा (एस एस 46895 एच) आर्टी के नीचे और लिजु राजन (एस एस 46952 वाई) ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—08—अक्टूबर—12) की वरिष्ठता वसन्त चौहान (एस एस 46951 डब्ल्यू) सिग्नल के नीचे प्रकाशित किया जाये, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवम्बर 2014 को प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—40 पाठ्यक्रम के हैं, लैफिटनेट के पद पर पूर्व—आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 15 मार्च 2014 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 17 मार्च 2013 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्ति के लिये दी जाती है:—

के नागार्जुन (एस एस—47289वाई), इन्फैन्ट्री (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता मुन्जे सागर सुधीर (एस एस—47288 डब्ल्यू), इंजिनियर्स, अरुण कुमार शर्मा (एस एस 47304 एच), ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता विपिन कुमार रावत (एस एस 47303 ए), एविएशन के नीचे और आशीष राठी (एस एस 47339 वाई), सिग्नल (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—17 मार्च 2013) की वरिष्ठता दिनेश कुमार (एस एस 47338 डब्ल्यू), सिग्नल के नीचे।

एस एन मिश्रा  
लै0 कर्नल  
एएमएस 8बी

## सेना शाखा

सं. 11, दिनांक 23 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

## नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लौ० के पद पर

निम्नलिखित 14 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—12 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लौ० के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व—आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 13 सितम्बर 2014 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 15 सितम्बर 2013 विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है :—

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 47696	एफ	प्रीती मुदेला	ई एम ई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47697	के	पसाद जंज्ञा चन्द्रेश	ई एम ई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47698	एम	वैष्णव देवी बी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47703	एम	गरिमा पुनियानी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47711	एल	सतमीत कौर	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47712	एन	जगविन्दर कौर	एएससी	07 अक्टूबर 13
एस एस 47718	पी	दीपा झा	ई एम ई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47723	ए	दीपशिखा बारभूइया	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47730	डब्ल्यू	अजिता वी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47735	पी	स्वाति सेंगर	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47738	एच	अस्वाति एस	ई एम ई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47742	एल	सोनिया सांगवान	एएससी	07 अक्टूबर 13
एस एस 47747	के	एस एम अनुराधा	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47767	एक्स	गौब्रिला राजन	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13

निम्नलिखित 17 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—12 पाठ्यक्रम के हैं, ने छ: मास का समय जो कि 13 सितम्बर 2014 को शुरू हुआ था, लौ० के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 13 सितम्बर 2014 से 10 वर्ष के लिये लौ० के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/92, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है :—

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47542	पी	मोक्षिता सिंह	ए एस सी
एस एस 47548	डब्ल्यू	तेलकर नम्रता विक्रमसिंह	ए ए डी
एस एस 47570	एफ	भूमिका सिंह राठौर	सिग्नल्स
एस एस 47577	एल	सुमन राय	ए एस सी
एस एस 47579	डब्ल्यू	श्रेया	ए एस सी
एस एस 47588	एक्स	भूमिका	इन्टर्स

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47592	ए	अक्षिता राणा	एविएशन
एस एस 47604	के	विन्सी मैथ्यु	सिग्नल्स
एस एस 47605	एम	प्रज्ञा सिन्हा	जैग
एस एस 47611	ए	मोहतिमा बड़कुर	जैग
एस एस 47619	एम	संकृष्टि चौधरी	इन्ट
एस एस 47623	पी	रीकू यादव	ए ओ सी
एस एस 47655	एक्स	देवेन्द्र कौर	ए ओ सी
एस एस 47662	एन	रेशमा एलिजाबेथ जान	ए ओ सी
एस एस 47666	के	ज्योति चौहान	ए ओ सी
एस एस 47675	एल	रेणु कौशिक	ए एस सी
एस एस 47691	एच	आर वैष्णवी	ए ओ सी

निम्नलिखित 95 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-98 पाठ्यक्रम के हैं, ने छ: मास का समय जो कि 13 सितम्बर 2014 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 13 सितम्बर 2014 से 10 वर्ष के लिये लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:-

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47543	एक्स	चन्द्र शेखर गुलेरिया	इन्फैन्ट्री
एस एस 47544	ए	युवराज एन	एविएशन
एस एस 47545	एच	अंकुर कुणाल सिंह	एसी
एस एस 47546	एल	मनिन्दर पाल सिंह	एविएशन
एस एस 47547	एन	सैयद मुर्तजा अली जाफरी	जैग
एस एस 47549	वाई	शशांक शर्मा	ए ओ सी
एस एस 47550	एन	कर्मवीर सिंह जोधा	इन्फैन्ट्री
एस एस 47552	वाई	आदेश सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री
एस एस 47553	एफ	निर्भय गोयल	एविएशन
एस एस 47554	के	कार्तिक गुप्ता	मैक
एस एस 47555	एम	नवीन गैरोला	आर्टी
एस एस 47557	एक्स	नीलान्धु रांगी	ए सी
एस एस 47559	एच	अमिलाश सिंह	आर्टी
एस एस 47560	एक्स	शुभम वशिष्ठ	आर्टी
एस एस 47562	एच	गैपुजाई थैमर्से	मैक
एस एस 47564	एन	नवनीत जरयाल	आर्टी
एस एस 47566	वाई	अभ्युद्या सिंह तरागी	इन्फैन्ट्री
एस एस 47567	एफ	कार्तिक दुर्गा	आर्टी

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47568	के	सबरी पी एम	आर्टी
एस एस 47571	के	टी एन हेमनाथन	इंजिनियर्स
एस एस 47572	एम	अनिकेत रामपाल	ए एस सी
एस एस 47573	पी	अनीस फैंकलीन एफ	ई एम ई
एस एस 47574	एक्स	शर्मा यश सतीश	इन्फैन्ट्री
एस एस 47576	एच	सन्दीप भट्ट	इंजिनियर्स
एस एस 47578	एन	उत्सव पाल	ए सी
एस एस 47580	एल	आशुतोष	एएडी
एस एस 47582	डब्ल्यू	प्रणय पन्वर	इन्फैन्ट्री
एस एस 47583	वाई	रजनीश सिध्धी एल आर	मैक
एस एस 47586	एम	मनोज कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस 47587	पी	सैम मथाई	ए सी
एस एस 47589	ए	सुखदीप सिंह	ए ओ सी
एस एस 47591	एक्स	नीरज सिंह	मैक
एस एस 47594	एल	कुलकर्णी कुनाल संजीव	इन्फैन्ट्री
एस एस 47595	एन	कट्टी सुप्रीत अशोक	इन्फैन्ट्री
एस एस 47596	डब्ल्यू	अविनाश चिमनका	जैग
एस एस 47598	एफ	ई अनुदीप रेड्डी	सिग्नल्स
एस एस 47599	के	तुषार सुब्बा	इन्फैन्ट्री
एस एस 47600	एन	निखिल वसवान	एविएशन
एस एस 47602	वाई	जाधव अनिरुद्ध भरत	इन्फैन्ट्री
एस एस 47603	एफ	एन्ड्रयु थोमस फुल्लर	आर्टी
एस एस 47606	पी	वरुण जे	आर्टी
एस एस 47607	एक्स	वरुण सहगल	आर्टी
एस एस 47609	एच	विवेक राम एच वी	इंजिनियर्स
एस एस 47610	एक्स	नवीन मान	ए एस सी
एस एस 47613	एल	गौरव अग्निहोत्री	ए एस सी
एस एस 47615	डब्ल्यू	प्रणवकुमार हनमन्त अगवाणे	एएडी
एस एस 47617	एफ	सिधार्थ राणा	एविएशन
एस एस 47620	एफ	विनायक आर्या	एविएशन
एस एस 47624	एक्स	अरविन्द आर शर्मा	इन्फैन्ट्री
एस एस 47625	ए	गगनदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री
एस एस 47626	एच	अजित लिम्बु	इन्फैन्ट्री
एस एस 47627	एल	रघुराज मेनन	इन्फैन्ट्री

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47629	डब्ल्यू	प्रशान्त गोगोई	इनफैन्ट्री
एस एस 47630	एल	दर्पण सिंह सैणी	इनफैन्ट्री
एस एस 47631	एन	सिद्धान्त शर्मा	सिग्नल्स
एस एस 47632	डब्ल्यू	नमन त्रिपाठी	आर्टी
एस एस 47633	वाई	विशाल बिष्ट	ए एस सी
एस एस 47634	एफ	मानस कुमार सिंह	आर्टी
एस एस 47635	के	एम एस द्वागसांगा	इनफैन्ट्री
एस एस 47636	एम	सिद्धान्त सतचित हसबनिस	एएडी
एस एस 47637	पी	राज कुमार	इनफैन्ट्री
एस एस 47638	एक्स	कुलदीप सिंह राठौर	एओसी
एस एस 47639	ए	हरमनप्रीत सिंह अरोड़ा	आर्टी
एस एस 47640	पी	केवार नाथ उपाध्याय	इनफैन्ट्री
एस एस 47642	ए	पीयूष शर्मा	एओसी
एस एस 47643	एच	राज प्रकाश	मैक
एस एस 47644	एल	अभिषेक सिंह	एसी
एस एस 47646	डब्ल्यू	लिकित गौड़ा पी एस	सिग्नल्स
एस एस 47649	के	तनवीर सिंह	एएडी
एस एस 47650	वाई	संजय सिंह अन्ना	इनफैन्ट्री
एस एस 47651	एफ	अक्षय पुन्ज	मैक
एस एस 47653	एम	हरप्रीत सिंह अर्नेजा	आर्टी
एस एस 47658	एल	गगनजीत सिंह	एसी
एस एस 47659	एन	सरफराज अहमद	इनफैन्ट्री
एस एस 47660	एच	सूरज गौड़	एएससी
एस एस 47663	डब्ल्यू	इन्द्रप्रीत सिंह	एसी
एस एस 47664	वाई	राजशेखर सरकार	आर्टी
एस एस 47667	एम	अकित जोशी	इन्ट
एस एस 47668	पी	शशान्क त्रिपाठी	एओसी
एस एस 47669	एक्स	अमित सक्सेना	इनफैन्ट्री
एस एस 47670	एम	गवि सुदर्शन विवेक	ईएमई
एस एस 47671	पी	पीयूष ठाकुर	एओसी
एस एस 47672	एक्स	तुरगा समीर	एएससी
एस एस 47673	ए	जोशी निशान्त नितिन	आर्टी
एस एस 47674	एच	मनसतकार सिंह	एविएशन
एस एस 47676	एन	सुमिरन सक्सेना	इंजिनियर्स

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 47678	वाई	एस रामाचन्द्रन	आर्टी
एस एस 47680	डब्ल्यू	नीतेश चौहान	जैग
एस एस 47683	के	पवन नेहरा	जैग
एस एस 47684	एम	सुभाष चन्द घिलदियाल	इन्फैन्ट्री
एस एस 47687	ए	सौरभ कुमार सिंह	आर्टी
एस एस 47688	एच	अंकुर सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 47689	एल	निर्भय भन्डारकर	इन्फैन्ट्री
एस एस 47692	एल	अर्णव प्रतीक सिंह परमार	एएससी
एस एस 47695	वाई	दलीप राणा	एसी

निम्नलिखित एक जेन्टलमैन कैडेट, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—37 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनको सम्मुख अकित तिथि से पूर्व— आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई मे प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 15 सितम्बर 2012 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है । उन्हे दिनांक 18 सितम्बर 2011 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्ति के लिये दी जाती है:-

सुभाषीश हाजरा (एस एस—45969 ए) सिग्नल्स (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि—10—अक्टूबर—11) की वरिष्ठता अनुज कुमार (एस एस—45968एक्स) इन्फैन्ट्री जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 10 मई 2014 को प्रकाशित हो चुका है ।

निम्नलिखित 44 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग—41 पाठ्यक्रम के हैं, लैफिटनेट के पद पर पूर्व— आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई मे प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है । सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 13 सितम्बर 2014 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस—2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है । उन्हें दिनांक 15 सितम्बर 2013 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्ति के लिये दी जाती है:-

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 47699	पी	दीपक कुमार सैनी	ईएमई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47701	एफ	केशव शर्मा	एएडी	07 अक्टूबर 13
एस एस 47702	के	अतुल नारा	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47705	एक्स	जपजीत सिंह	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47706	ए	करणदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 13
एस एस 47707	एच	साजेन सोमन	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47708	एल	आयूष देवलियाल	ईएमई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47710	एच	विनय प्रताप	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47713	डब्ल्यू	मनीष कुमार झा	आर्टी	07 अक्टूबर 13
एस एस 47714	वाई	वेमुला श्रवण कुमार	ईएमई	07 अक्टूबर 13
एस एस 47715	एफ	मलेला लोकेश चकवर्ती	इंजिनियर्स	08 अप्रैल 13
एस एस 47717	एम	परविन्दर सिंह	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13
एस एस 47719	एक्स	परवेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 13

एस एस नं		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा (परखाधीन) तिथि	आयोग
एस एस 47720	एम	आशीष कौन्डल	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47721	पी	मनीष यादव	ईएमई	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47722	एक्स	अमृतान्ध जौहरी	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47724	एच	नीतीष अरोड़ा	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47725	एल	मेहुल मनोहरण	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47726	एन	उत्कर्ष मौर्या	आर्टी	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47728	वाई	वरुण कुमार	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47731	वाई	माने नीलेश सन्दीपन	मैक	12 अक्टूबर 13	
एस एस 47733	के	अमित तिवारी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47734	एम	चेतनवीर सिंह	आर्टी	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47736	एक्स	अजय नायर वी एम	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47737	ए	नवीन सेन	ईएमई	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47739	एल	प्रेम मलहोत्रा	सिग्नल्स	08 अप्रैल 13	
एस एस 47740	ए	प्रीतपाल सिंह	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47741	एच	इन्द्रपाल सिंह	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47743	एन	कुन्धे राजाशेखर वारा प्रसाद	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47744	डब्ल्यू	मयन्क जैन	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47746	एफ	आकाश वी	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 13	
एस एस 47748	एम	अमित सिन्धु	एविएशन	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47749	पी	सुरोजीत बनर्जी	ईएमई	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47751	एम	निखिल मखानी	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47752	पी	सोमेष शर्मा	एएससी	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47754	ए	अर्णव गुप्ता	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47756	एल	कृष्णा वीर सिंह	ईएमई	08 अप्रैल 13	
एस एस 47757	एन	सप्राट कुमार घोष	एओसी	12 अक्टूबर 13	
एस एस 47758	डब्ल्यू	अनन्त दीप सिंह वाधवा	ईएमई	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47760	एन	अर्पित खेरा	ईएमई	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47761	डब्ल्यू	येरीकलपुड़ी गोवर्धन राव	ईएमई	10 अक्टूबर 13	
एस एस 47763	एफ	अकित मलहोत्रा	एसी	07 अक्टूबर 13	
एस एस 47765	एम	मयंक अरोड़ा	ईएमई	08 अप्रैल 13	
एस एस 47766	पी	अक्षय त्रिपाठी	सिग्नल्स	07 अक्टूबर 13	

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 12, दिनांक 23 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹15600—39100/- (पे बैंड-3) + ₹ 5400/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (युप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2013AB1052	श्री देवकर अरुणकुमार	सी बी आर डी ई, चैन्सई	14.08.2013
2011AB1017	श्री विनोथ पी	डी ई बी ई एल, बैंगलौर	13.06.2011
2013AB1051	श्री मुकेश रॉय	आई टी आर, चांदीपुर	22.01.2013
2012AB1086	सुश्री सोनी कुमारी	एस एस पी एल, दिल्ली	31.10.2012

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹37,400—67,000/- (पे बैंड-4) + ₹ 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'ई' (युप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2014AE1003	श्री प्रेमप्रकाश यशवंत बोर्से	ए आर डी ई, पुणे	27.02.2014

राजीव रंजन,  
संयुक्त—निदेशक/कार्मिक  
(डी आर डी एस-II)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 13, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं—

श्री मनीष कुमार गुप्ता को भंडार अधिकारी, युप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 05.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में ₹० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे ₹० 4600 पर।

श्री रणविजय कुमार को भंडार अधिकारी, युप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 15.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में ₹० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे ₹० 4600 पर।

श्री के प्रशांत को भंडार अधिकारी, युप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 23.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में ₹० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे ₹० 4600 पर।

श्री ब्रजमोहन सिंह चौहान को भंडार अधिकारी, युप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 03.08.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में ₹० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे ₹० 4600 पर।

राजीव रंजन सिंह  
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

## थल सेना शाखा

सं. 14, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

जगतार सिंह (एमआर-04276एन)	—	01-05-15, वेतन व पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-15 से दी जाती है।
डी एस भाकुनी, वीएसएम (एमआर-04758एच)	—	01-06-15, वेतन व पेशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-15 से दी जाती है।

टी एस अहलुवालिया (एमआर-04954एच)	—	23-06-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17-06-15 से दी जाती है।
ए बैनर्जी, एसएम (एमआर-04428के)	—	18-06-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17-06-15 से दी जाती है।
आर ग्रेवाल, वीएसएम (एमआर-04434एक्स)	—	15-07-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-15 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

एस डी मुलगुन्ड (एमआर-04756एक्स)	—	08-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30-05-12 से दी जाती है।
वाई एस बिष्ट (एमआर-05354एम)	—	01-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-04-14 से दी जाती है।
आर बी एम कृष्णा एमआर-05609एफ)	—	10-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-05-14 से दी जाती है।
अमित रॉय (एमआर-04923एच)	—	04-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-02-15 से दी जाती है।
के के नंदवाणी (एमआर-05137डब्ल्यू)	—	07-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-15 से दी जाती है।
एस के सिंह (एमआर-05303वाई)	—	21-07-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-15 से दी जाती है।
पी पूरी (एमआर-05884एफ)	—	06-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-06-15 से दी जाती है।
पूर्णन्दु एसएम(डी), वीएसएम (एमआर-06084पी)	—	10-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-06-15 से दी जाती है।
के श्रीकर (एमआर-05400डब्ल्यू)	—	29-07-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-06-15 से दी जाती है।
आर के गुप्ता (एमआर-05398के)	—	03-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-06-15 से दी जाती है।
के घोष (एमआर-05068एल)	—	11-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-15 से दी जाती है।
ए पी पाढ़ी (एमआर-03388एफ)	—	02-08-2003

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो कि ब्रिगेडियर पदोन्नति से संबंधित है जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त अधिकारी से है, उसे रद्द किया जाता है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

अजौय मेनन (एमआर-06332ए)	—	05-02-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-02-12 से दी जाती है।
----------------------------	---	--

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20 जून 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो कि कर्नल पदोन्नति से संबंधित है, जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त अधिकारी से है, उसे रद्द किया जाता है।

विनोय कुमार (एमआर-06395एच)	—	06-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-04-12 से दी जाती है।
हरकिरत सिंह (एमआर-06349एन)	—	09-12-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-05-12 से दी जाती है।
ए के सिंह (एमआर-06357एम)	—	09-12-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-05-12 से दी जाती है।
प्रफुल्ल कुमार (एमआर-07189एल)	—	22-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-07-13 से दी जाती है।
एन के प्रसन्ना (एमआर-07320एक्स)	—	31-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-07-13 से दी जाती है।
जी आर मिश्रा (एमआर-07155एक्स)	—	03-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-01-14 से दी जाती है।
एस के सेनगुप्ता (एमआर-06943पी)	—	14-09-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-01-14 से दी जाती है।
एम चौधरी (एमआर-06619एक्स)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-01-14 से दी जाती है।
राजश्री सिंह (एमआर-06661डब्ल्यू)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-01-14 से दी जाती है।
के वेंकटनारायण (एमआर-06621पी)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-01-14 से दी जाती है।
ए हाजरा (एमआर-06622एक्स)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-01-14 से दी जाती है।
गौरव कुमार (एमआर-06623ए)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-01-14 से दी जाती है।
वी के मौर्या (एमआर-06625एल)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-01-14 से दी जाती है।
नवरीत सिंह (एमआर-06626एन)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-02-14 से दी जाती है।
आनंद शंकर (एमआर-06630डब्ल्यू)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-02-14 से दी जाती है।
पी श्रीनिवास राव (एमआर-06629एफ)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-02-14 से दी जाती है।
अजय बिष्ट (एमआर-06631वाई)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-02-14 से दी जाती है।
अमिताभ तिवारी (एमआर-06633के)	—	20-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-02-14 से दी जाती है।

ए सुदर (एमआर—06634एम)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—03—14 से दी जाती है ।
एस आई टोटलानी (एमआर—06636एक्स)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02—03—14 से दी जाती है ।
टी जे रप्पाइ (एमआर—06641एच)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03—03—14 से दी जाती है ।
चेतन सूद (एमआर—06642एल)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04—03—14 से दी जाती है ।
यू कपूर (एमआर—06646एफ)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05—03—14 से दी जाती है ।
संतोष कुमार (एमआर—06649पी)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06—03—14 से दी जाती है ।
सुरजित साहू (एमआर—06650के)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07—03—14 से दी जाती है ।
आर ए कुमार (एमआर—06652पी)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07—03—14 से दी जाती है ।
डी कालरा (एमआर—06653एक्स)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07—03—14 से दी जाती है ।
वाणी सूर्यम (एमआर—07066वाई)	—	20—12—14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07—03—14 से दी जाती है ।
धीरेन्द्र कुमार (एमआर—07387डब्ल्यू)	—	02—02—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—04—14 से दी जाती है ।
ए के वासुदेवा (एमआर—07207एच)	—	10—02—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02—04—14 से दी जाती है ।
शशि शुक्ला (एमआर—07452एल)	—	17—02—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
पी पंडित (एमआर—07458एम)	—	28—02—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
एम एस किदवई (एमआर—07381पी)	—	01—03—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
जे एम जयप्रकाश (एमआर—07200वाई)	—	06—03—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
एस डी पोद्धार (एमआर—07310एन)	—	08—03—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
बी आर श्रीजिथ (एमआर—07314के)	—	08—03—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—05—14 से दी जाती है ।
वी के नाइक (एमआर—07201एफ)	—	09—03—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16—05—14 से दी जाती है ।

आर ए शेष्टी (एमआर-07315एम)	—	14-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-05-14 से दी जाती है।
सहदेव सिंह (एमआर-07600एल)	—	14-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-05-14 से दी जाती है।
आर कौर (एमआर-07369एन)	—	15-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28-05-14 से दी जाती है।
बी के नायक (एमआर-07009एक्स)	—	23-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-14 से दी जाती है।
टी के रथ (एमआर-07599एफ)	—	23-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-06-14 से दी जाती है।
ए श्रीनिवास (एमआर-06804एल)	—	27-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-06-14 से दी जाती है।
आई वी नागेश (एमआर-07193एन)	—	28-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-06-14 से दी जाती है।
विक्रम पात्रा (एमआर-07316पी)	—	30-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-06-14 से दी जाती है।
के वी राधाकृष्ण (एमआर-07305एच)	—	03-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-06-14 से दी जाती है।
पी सुरेश (एमआर-07519वाई)	—	04-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-06-14 से दी जाती है।
एम टंडन (एमआर-07317एक्स)	—	06-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-14 से दी जाती है।
डी दत्ता (एमआर-07383ए)	—	06-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-14 से दी जाती है।
डी पी प्रशंसा (एमआर-07217एम)	—	10-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-07-14 से दी जाती है।
एस पी शर्मा (एमआर-07010एम)	—	13-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-07-14 से दी जाती है।
आर पी एस तोमर (एमआर-07614एल)	—	13-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-07-14 से दी जाती है।
एस मेहरोत्रा (एमआर-06657एन)	—	23-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-07-14 से दी जाती है।
अरुण कुमार (एमआर-07306एल)	—	11-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-07-14 से दी जाती है।
सी बैनर्जी (एमआर-07610पी)	—	23-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-14 से दी जाती है।
एम एच फैज अहमद (एमआर-06667एक्स)	—	06-06-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-08-14 से दी जाती है।

पी के साहू (एमआर—06671ए)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
आर के सिंधल (एमआर—06674एन)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
के एन घोषाल (एमआर—06677एफ)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
यू एस गर्ग (एमआर—06682एम)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
बी ए मुथन्ना (एमआर—06688एन)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
एस भट्टाचार्या (एमआर—06689डब्ल्यू)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
एम बैनर्जी (एमआर—07230डब्ल्यू)	—	06—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—09—14 से दी जाती है।
ए के सिंह (एमआर—07195वाई)	—	17—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02—09—14 से दी जाती है।
पूनम राज (एमआर—06809के)	—	20—06—15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01—10—14 से दी जाती है।

ले.कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

एमआर—06713एफ	ले. कर्नल	मुकुल गर्ग	22 अक्टूबर 2014
एमआर—06153ए	ले. कर्नल	तथागत बोस	16 जून 2015
एमआर—06312एम	ले. कर्नल	संजय झा	19 जून 2015
एमआर—07219एक्स	ले. कर्नल	ए के बरारा	14 जुलाई 2015

आर के रान्याल  
एयर कमोडोर  
उपमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

#### सेना सचिव शाखा

सं. 15, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी—42842 ए/ब्रिग सुशील शर्मा, ग्रेन	26.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—42954 ए/ब्रिग प्रमोद कुमार ए, जैक रिफ	21.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—43258 ए/ब्रिग एस वी भास्कर, वीरसी, जैक रिफ	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.01.12 से दी जायेगी।

आई सी-43376 ए/ब्रिग संजीव दत्त, जैक लाई	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-43751 ए/ब्रिग बी एस औजला, महार	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-43768 ए/ब्रिग मुकेश रस्तोगी, राजपूत	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-43813 ए/ब्रिग के बी एस भीमराज, मद्रास	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-43822 ए/ब्रिग एन आर बाबू, पंजाब	06.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44060 ए/ब्रिग अनिल गौतम, ए ए डी	26.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44072 ए/ब्रिग के भारद्वाज, आर्टि	16.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44121 ए/ब्रिग ची एन सावन्त, मराठा लाई	21.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44224 ए/ब्रिग आर बुटालिया, आर्टि	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44266 ए/ब्रिग ए गांगुली, आर्टि	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44327 ए/ब्रिग एस आई खान, ए ए डी	20.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45577 ए/ब्रिग गौतम गांगुली, ग्रेन	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45677 ए/ब्रिग सुनील कुमार, एस एम, नागा	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45688 ए/ब्रिग सलिल शर्मा, आर्म्ड	03.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45692 ए/ब्रिग मनोज मोहन, सिक्ख	07.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45712 ए/ब्रिग देवेन्द्र सिंह, जैग	20.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45714 ए/ब्रिग वाई एस गहलोत, ए ओ सी	16.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45767 ए/ब्रिग नरेन्द्र सिंह, सिक्ख	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45770 ए/ब्रिग डी के अहलुवालिया, जैग	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45787 ए/ब्रिग विपिन चक्रवर्ती, जैग	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44473 ए/ब्रिग आर मुरुगन, मेक इंफ	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.01.12 से दी जायेगी।

आई सी—44474 ए/ब्रिग आर आर रैना, डोगरा	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44475 ए/ब्रिग ए भनोत, आर्टि	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44477 ए/ब्रिग विजय सिंह, वी एस एम, आर्टि	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44498 ए/ब्रिग आर सी तिवाड़ी, कुमाऊं	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44500 ए/ब्रिग वी पी सिंह, इंजीनियर्स	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44501 ए/ब्रिग ए के वर्मा, गढ़ रिफ	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44502 ए/ब्रिग यू एस सेनगुप्ता, ई एम ई	24.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44506 ए/ब्रिग आर एस डडवाल, वी एस एम, जैक रिफ	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44507 ए/ब्रिग विनय हांडा, ए ए डी	24.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44508 ए/ब्रिग ए के शर्मा, वीर सी, ए ओ सी	31.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44509 ए/ब्रिग सुयास शर्मा, सिंग्स	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44510 ए/ब्रिग राजीव सेठी, आर्टि	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44513 ए/ब्रिग रमेश बालान, सिंग्स	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44515 ए/ब्रिग वी श्रीहरि, एस सी, पैरा	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44516 ए/ब्रिग सुखजिन्दर सिंह, वी एस एम, ए एस सी	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44517 ए/ब्रिग ए शर्मा, आर्टि	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44522 ए/ब्रिग एस एस मिश्रा, ए ओ सी	31.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44525 ए/ब्रिग संजीव डोगरा, जाट	23.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44526 ए/ब्रिग अजय सिंह, गढ़ रिफ	27.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44539 ए/ब्रिग दब उदय कुमार, आर्टि	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44545 ए/ब्रिग ए सेनगुप्ता, पंजाब	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.01.12 से दी जायेगी।

आई सी-44546 ए/ब्रिग एस के सेंगर, सिक्ख लाई	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44547 ए/ब्रिग आर के सचदेवा, इंजीनियर्स	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44552 ए/ब्रिग रघु श्रीनिवासन, इंजीनियर्स	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44554 ए/ब्रिग सुक्रीत चड्ढा, एस एम, मेक इंफ	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44560ए/ब्रिग अमरीक सिंह, सिंग्स	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44563ए/ब्रिग एस बी कुमार, एस एम, राजपूत	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44564 ए/ब्रिग वाई पी खंडूरी, जैक लाई	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44569 ए/ब्रिग पीयूष गुप्ता, गार्ड्स	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44571 ए/ब्रिग टी पी एस वधवा, इंजीनियर्स	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44572 ए/ब्रिग एस ठकरन, गढ रिफ	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44573 ए/ब्रिग एस के झा, असम	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44574 ए/ब्रिग एस भदौरिया, नागा	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44576 ए/ब्रिग नवजोत सिंह, सिंग्स	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44587 ए/ब्रिग ए लूम्बा, आर्म्ड	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44595 ए/ब्रिग बी कुमार, ए एस सी	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44598 ए/ब्रिग आर के भाटिया, इंट	05.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44603 ए/ब्रिग बी कश्यप, आर्म्ड	23.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44605 ए/ब्रिग बी के रत्तन पाल, जैक रिफ	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44611 ए/ब्रिग आर पी सिंह, आर्टिं	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44618 ए/ब्रिग हरीश कुकरेजा, आर्टिं	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.01.12 से दी जायेगी।

आई सी—44619 ए/ब्रिग पी एस गोठरा, मद्रास	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44626 ए/ब्रिग एन के गोयल, 1 जी आर	05.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44646 ए/ब्रिग जे बी सिंह, आर्टि	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44654 ए/ब्रिग डी एस सिसोदिया, जाट	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44658 ए/ब्रिग एस एस अहलावत, ए एस सी	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44668 ए/ब्रिग एस के प्रसाद, आर्टि	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44670 ए/ब्रिग वेंकटेश शर्मा, आर्टि	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44689 ए/ब्रिग जे एस भारद्वाज, मद्रास	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44694 ए/ब्रिग ए चौधरी, वीर सी, ए एस सी	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44708 ए/ब्रिग आर शर्मा, आर्टि	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44712 ए/ब्रिग एस के बकशी, ए एस सी	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44713 ए/ब्रिग ए एस ढिल्लन, एस एम, आर्म्ड	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44716 ए/ब्रिग जे बी सिंह, बिहार	07.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44727 ए/ब्रिग संजीव यादव, आर्टि	08.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44729 ए/ब्रिग पी एस सेहरावत, एस एम**, गार्ड्स	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44736 ए/ब्रिग संजय मैनी, आर्म्ड	08.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44746 ए/ब्रिग एस एस सन्धु, आर्टि	12.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44749 ए/ब्रिग आर के वासोन, ई एम ई	24.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44806 ए/ब्रिग संजीव सोनी, पंजाब	19.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—44808 ए/ब्रिग एस भार्गव, आर्टि	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.01.12 से दी जायेगी।

आई सी-44812 ए/ब्रिग एस एस बजाज, राज रिफ	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44570 ए/ब्रिग एन एस खरौद, आर्टि	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-44607 ए/ब्रिग एस के डे, आर्टि	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-48874 ए/ब्रिग जलील, इंजीनियर्स	01.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-48886 ए/ब्रिग के शंकर, सिंग्स	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-48900 ए/ब्रिग मुकेश बंसल, सिंग्स	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-48866 ए/ब्रिग परितोष शाह, इंजीनियर्स	01.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45795 ए/ब्रिग विक्रम सिंह, ग्रेन	29.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45797 ए/ब्रिग अनिल बेनीवाल, लद्घाख स्काउट	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45798 ए/ब्रिग वी एस सांख्यान, गार्ड्स	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45807 ए/ब्रिग डी श्रीवास्तव, जैक लाई	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-45806 ए/ब्रिग एस एन डल्वी, एस एम, महारा	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47002 ए/ब्रिग जे एस मंगत, आर्म्ड	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47003 ए/ब्रिग डी शर्मा, आर्म्ड	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47004 ए/ब्रिग पी एस शेखावत, मेक इंफ	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47013 ए/ब्रिग दीपक मेहरा, के सी, 5 जी आर	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47020 ए/ब्रिग डी एस राना, एस एम, गढ रिफ	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47023 ए/ब्रिग एन एस सरना, आर्टि	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47025 ए/ब्रिग संदीप सहगल, जाट	01.11.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47057 ए/ब्रिग एम अग्रवाल, आर्टि	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.01.12 से दी जायेगी।

आई सी-47058 ए/ब्रिग सतबीर सिंह, एस एम**, जाट	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47060 ए/ब्रिग एन नन्दन, आर्टि (जी सी)	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47061 ए/ब्रिग वी शर्मा, ए ए डी	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47064 ए/ब्रिग एम नटराजन, एस सी, बिहार	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47070 ए/ब्रिग ए एम बापट, 9 जी आर	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47072 ए/ब्रिग आर पी सिंह, राज रिफ	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.01.12 से दी जायेगी।
आई सी-47076 ए/ब्रिग राकेश कपूर, आर्म्ड	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47082 ए/ब्रिग डी एस सैनी, वी एस एम, राजपूत	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47099 ए/ब्रिग आर के गायकवाड़, असम	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47153 ए/ब्रिग आर सान्ध्याल, सिंग्स	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47208 ए/ब्रिग रंजन महाजन, राज रिफ	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47220 ए/ब्रिग अमित, ई एम ई	01.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47247 ए/ब्रिग पी पाण्डेय, वी एस एम, सिक्ख	28.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47253 ए/ब्रिग जी जोशी, एस एम, गढ़ रिफ	01.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47263 ए/ब्रिग आर ठाकुर, एस एम, वी एस एम, मराठा लाई	01.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47298 ए/ब्रिग रविन्द्र सिंह, एस एम, सिक्ख	01.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47318 ए/ब्रिग एस कादियान, राजपूत	16.02.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47354 ए/ब्रिग जी एस सन्धु, एस एम, ए ओ सी	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47372 ए/ब्रिग आर आर शर्मा, आर्टि	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.02.12 से दी जायेगी।

आई सी—47407 ए/ब्रिग बी एस जाखड़, डोगरा	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.02.12 से दी जायेगी।
आई सी—47410 ए/ब्रिग संजय बवेजा, असम	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.02.12 से दी जायेगी।
आई सी—47038 ए/ब्रिग एस एन तिवारी, पैरा	01.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.02.12 से दी जायेगी।
आई सी—49349 ए/ब्रिग विनीत गौड़, ई एम ई	26.03.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.02.12 से दी जायेगी।
आई सी—43671 ए/ब्रिग आर के छिकारा, एस एम, जैक रिफ	06.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.01.12 से दी जायेगी।

देवाशिस प्रधान  
उप निदेशक एम एस (एक्स)

नियमित सेना  
मिलिट्री नर्सिंग सेवा  
स्थायी कमीशन

सं. 16 दिनांक 29 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं—

ले. कर्नल(समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम

व्यक्तिगत संख्या

पदोन्नति की तारीख

ले० कर्नल सलीना टी सी

एन आर—18699 एम

15 दिसम्बर 2014

लैफिटनेंट से कैप्टन

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कै० ज्योति शर्मा	एन आर—22851 एम	01 मार्च 2015
कै० प्रीति प्रजापति	एन आर—22852 पी	01 मार्च 2015
कै० मीनल उपाध्याय	एन आर—22853 एक्स	01 मार्च 2015
कै० महिमा शुक्ला	एन आर—22854 ए	01 मार्च 2015
कै० सीना मैथ्यू	एन आर—22855 एच	01 मार्च 2015
कै० रूपा	एन आर—22856 एल	01 मार्च 2015
कै० संजीदा बेगम	एन आर—22857 एन	01 मार्च 2015
कै० चंचल सिंह	एन आर—22858 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० मनीषा राई	एन आर—22859 वाई	01 मार्च 2015
कै० प्रीति	एन आर—22860 एन	01 मार्च 2015
कै० संगीता सिंह	एन आर—22861 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० अनुराधा कुमारी	एन आर—22862 वाई	01 मार्च 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कै० सोनी कुमारी	एन आर-22863 एफ	01 मार्च 2015
कै० पूजा राई	एन आर-22864 के	01 मार्च 2015
कै० मंजु लता	एन आर-22865 एम	01 मार्च 2015
कै० पूनम	एन आर-22866 पी	01 मार्च 2015
कै० प्रतिमा पाण्डे	एन आर-22867 एक्स	01 मार्च 2015
कै० ज्योति यादव	एन आर-22868 ए	01 मार्च 2015
कै० पारुल थापा	एन आर-22869 एच	01 मार्च 2015
कै० निहारिका हरीश	एन आर-22871 ए	01 मार्च 2015
कै० श्रुति शंकर के बी	एन आर-22872 एच	01 मार्च 2015
कै० अमृता कुमारी	एन आर-22873 एल	01 मार्च 2015
कै० अर्चना वर्मा	एन आर-22874 एन	01 मार्च 2015
कै० बिता कुमारी	एन आर-22875 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० अमिता देवी	एन आर-22876 वाई	01 मार्च 2015
कै० नाजनीन खान	एन आर-22877 एफ	01 मार्च 2015
कै० रिंकू कुमारी	एन आर-22878 के	01 मार्च 2015
कै० निर्मला थापा	एन आर-22879 एम	01 मार्च 2015
कै० विनीता शर्मा	एन आर-22880 एफ	01 मार्च 2015
कै० मन्जु	एन आर-22881 के	01 मार्च 2015
कै० दीपिका मुन्दुतिया	एन आर-22882 एम	01 मार्च 2015
कै० दीपिका	एन आर-22883 पी	01 मार्च 2015
कै० श्वेता वालिया	एन आर-22884 एक्स	01 मार्च 2015
कै० प्रीति भारद्वाज	एन आर-22885 ए	01 मार्च 2015
कै० रोशनी सोनी	एन आर-22886 एच	01 मार्च 2015
कै० जिजिना जे	एन आर-22887 एल	01 मार्च 2015
कै० दिव्या बी	एन आर-22888 एन	01 मार्च 2015
कै० स्मिता बारौनिया	एन आर-22889 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० हर्षा श्रीवास्तव	एन आर-22890 एल	01 मार्च 2015
कै० सरिता कश्यप	एन आर-22891 एन	01 मार्च 2015
कै० आकांक्षा कतियार	एन आर-22892 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० कुमारी कविता चहर	एन आर-22893 वाई	01 मार्च 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कै० भारती मीना	एन आर-22894 एफ	01 मार्च 2015
कै० आशा तिवारी	एन आर-22895 के	01 मार्च 2015
कै० दीपिका शुक्ला	एन आर-22896 एम	01 मार्च 2015
कै० कविता चौधरी	एन आर-22897 पी	01 मार्च 2015
कै० संजू भट्ट	एन आर-22898 एक्स	01 मार्च 2015
कै० निशा सिंह	एन आर-22899 ए	01 मार्च 2015
कै० मीनू गोयल	एन आर-22900 के	01 मार्च 2015
कै० रिंकू तमंग	एन आर-22901 एम	01 मार्च 2015
कै० दीपिका कुमारी	एन आर-22902 पी	01 मार्च 2015
कै० प्रेमा सुमन	एन आर-22903 एक्स	01 मार्च 2015
कै० प्रभा देवी	एन आर-22904 ए	01 मार्च 2015
कै० पूजा प्रधान	एन आर-22905 एच	01 मार्च 2015
कै० सपना शर्मा	एन आर-22906 एल	01 मार्च 2015
कै० गोविन्दी देवी	एन आर-22907 एन	01 मार्च 2015
कै० पूजा	एन आर-22908 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० निधि थापा	एन आर-22909 वार्ड	01 मार्च 2015
कै० फूल कुमारी	एन आर-22910 एन	01 मार्च 2015
कै० कविता	एन आर-22911 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कै० इरोम मैमोली देवी	एन आर-22912 वार्ड	01 मार्च 2015
कै० पूरबीता सरकार	एन आर-22913 एफ	01 मार्च 2015
कै० अनिता धोनी	एन आर-22914 के	01 मार्च 2015
कै० प्रीति सिंह	एन आर-22915 एम	01 मार्च 2015
कै० शिवा देवी	एन आर-22916 पी	01 मार्च 2015
कै० मन्जु सिंह	एन आर-22917 एक्स	01 मार्च 2015
कै० ममता रानी	एन आर-22918 ए	01 मार्च 2015
कै० रीतुशाक्या	एन आर-22919 एच	01 मार्च 2015
कै० सुनीता दत्ता	एन आर-22920 एक्स	01 मार्च 2015
कैप्टन देवांजना घोषाल	एन एस -22921ए	01 मार्च 2015
कैप्टन प्रतिभा कुमारी	एन एस -22922 एच	01 मार्च 2015
कैप्टन रेखा कुमारी	एन एस -22923 एल	01 मार्च 2015
कैप्टन प्रभा यादव	एन एस -22924 एन	01 मार्च 2015
कैप्टन नेहा बान्कोटी	एन एस -22925 डब्ल्यू	01 मार्च 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन मधुलता	एन एस -22926 वाई	01 मार्च 2015
कैप्टन शिवांगी बाजपेयी	एन एस -22927 एफ	01 मार्च 2015
कैप्टन अंजु चन्द्रन	एन एस -22928 के	01 मार्च 2015
कैप्टन कुसुम विश्नोई	एन एस -22929 एम	01 मार्च 2015
कैप्टन मनीषा कुमारी	एन एस -22930 एफ	01 मार्च 2015
कैप्टन पल्लवी सिंह	एन एस -22931 के	01 मार्च 2015
कैप्टन निशा शर्मा	एन एस -22932 एम	01 मार्च 2015
कैप्टन अखिला ए एस	एन एस -22933 पी	01 मार्च 2015
कैप्टन अर्चना बुगालिया	एन एस -22934 एक्स	01 मार्च 2015
कैप्टन दुर्गा राणा	एन एस -22935 ए	01 मार्च 2015
कैप्टन मोनिका चौधरी	एन एस -22936 एच	01 मार्च 2015
कैप्टन राखी बौरई	एन एस -22937 एल	01 मार्च 2015
कैप्टन निशा एस एन	एन एस -22938 एन	01 मार्च 2015
कैप्टन आरमा बेगम	एन एस -22939 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कैप्टन अमनदीप कौर	एन एस -22940 एल	01 मार्च 2015
कैप्टन अनु यादव	एन एस -22941 एन	01 मार्च 2015
कैप्टन संचिता	एन एस -22942 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कैप्टन रशिम तिवारी	एन एस -22943 वाई	01 मार्च 2015
कैप्टन संध्या कुमारी	एन एस -22944 एफ	01 मार्च 2015
कैप्टन अधिरा न्जानेसन	एन एस -22945 के	01 मार्च 2015
कैप्टन बबिता चन्दोला	एन एस -22946 एम	01 मार्च 2015
कैप्टन स्वाति	एन एस -22947 पी	01 मार्च 2015
कैप्टन शबनम	एन एस -22948 एक्स	01 मार्च 2015
कैप्टन इरमशमरीन	एन एस -22949 ए	01 मार्च 2015
कैप्टन हरदीप कौर	एन एस -22950 पी	01 मार्च 2015
कैप्टन मीनाक्षी शर्मा	एन एस -22951 एक्स	01 मार्च 2015
कैप्टन शिल्पा वी एस	एन एस -22952 ए	01 मार्च 2015
कैप्टन आरती सिंह कुशवाहा	एन एस -22953 एच	01 मार्च 2015
कैप्टन आनन्दिता चौधरी	एन एस -22954 एल	01 मार्च 2015
कैप्टन शाइनी शर्मा	एन एस -22955 एन	01 मार्च 2015
कैप्टन मीना कुमारी	एन एस -22956 डब्ल्यू	01 मार्च 2015
कैप्टन छाया	एन एस -22957 वाई	01 मार्च 2015
कैप्टन अंशु एस	एन एस -22958 एफ	01 मार्च 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन मीनाक्षी	एन एस -22959 के	01 मार्च 2015
कैप्टन रेखा बाघेला	एन एस -22960 वाई	01 मार्च 2015
कैप्टन अनामिका यादव	एन एस -22961 एफ	01 मार्च 2015
कैप्टन रेवती शंकर	एन एस -22962 के	01 मार्च 2015
कैप्टन गोल्डी मिश्रा	एन एस -22963 एम	01 मार्च 2015
कैप्टन रश्मि कुमारी	एन एस -22964 पी	01 मार्च 2015
कैप्टन नेहा सिंह	एन एस -22965 एक्स	01 मार्च 2015
कैप्टन सी दिव्या राव	एन एस -22966 ए	01 मार्च 2015
कैप्टन अस्वथी कबीर	एन एस -22967 एच	01 मार्च 2015

सुशीला शाही  
मेजर जनरल  
अतिरिक्त महानिदेशक  
(एम एन एस)

सं. 17, दिनांक 29 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:—

नियमित सेना  
कोर ऑफ इंजिनियर्स  
मद्रास इंजिनियर ग्रुप

पद	नाम	जेसी नम्बर	पदोन्नति की तिथि
सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में			
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	युनुस एस	जेसी 308516 डब्ल्यू	03 जून 2015 @
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	दुर्गा दत पाण्डेय	जेसी 308524 पी	03 जून 2015 #
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	बलविर सिंह	जेसी 308549 एफ	02 जून 2015 #
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	सुरेश कुमार	जेसी 308566 एफ	02 जून 2015 #
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	राम कुमार	जेसी 308584 के	02 जून 2015 #
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	मनोज के एम	जेसी 308586 पी	04 जून 2015 #
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	घन श्याम सिंह	जेसी 308611 एच	02 जून 2015 #
@सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी गई है।			
#सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी गई है।			
सूबेदार मेजर (जी.डी.) के मूल पद में			
सूबेदार(जी.डी.)	आर जयाप्रसाद राव	जेसी 309107पी	01 जून 2015
सूबेदार(जी.डी.)	मंजूनाथा बी सी	जेसी 309104एफ	01 जून 2015
सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में			
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	प्रदीप चन्द्र	जेसी 310084 एल	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	संकर सुब्बु एम	जेसी 310085 एन	01 जून 2015

नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	जोसेफ के आर	जेसी 310086 डब्ल्यू	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	जय प्रकाश मिश्रा	जेसी 310087 वाई	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	सुबोध कुमार सिंह	जेसी 310088एफ	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	निनाप्पा सवडट्टी	जेसी 310089 के	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	लखबिर सिंह	जेसी 310091 एफ	01 जून 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	शशी भूषण द्विवेदी	जेसी 310092 के	01 जून 2015
सूबेदार (जी. डी.) के मूल रैंक में			
नायब सूबेदार (जी.डी.)	नामेशा ए	जेसी 310148एल	01 जून 2015 @
नायब सूबेदार (जी.डी.)	शेखर के	जेसी 310372एक्स	01 जून 2015 &
नायब सूबेदार (जी.डी.)	कंचरला वेंकटा रमना	जेसी 310414वाई	01 जून 2015 #
नायब सूबेदार (जी.डी.)	के पलानीवेल	जेसी 310465एम	01 जून 2015\$
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अनील कुमार	जेसी 310468ए	01 जून 2015\$
नायब सूबेदार (जी.डी.)	परान्थमन एस	जेसी 310489 डब्ल्यू	01 जून 2015\$
नायब सूबेदार (जी.डी.)	वेलमुरुगन एस	जेसी 310497पी	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	रंगा सतीष	जेसी 310498एक्स	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	यु सोमा सेखर	जेसी 310499ए	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एम संजीवुलु	जेसी 310501एम	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अम्बती पपीनायडु	जेसी 310502पी	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	के एस अंटोनी शिवियर	जेसी 310503एक्स	01 जून 2015*
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एम मुरुगन	जेसी 310504ए	01 जून 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	शजी एम के	जेसी 310505एच	01 जून 2015*

@सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2014 से दी गई है & सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी गई है ।

# सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी गई है ।

\$ सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी गई है ।

\*सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी गई है ।

#### सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	निजाम टी जे	जेसी 308517वाई	05 मई 2015 @
सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	मोती गिर गोस्वामी	जेसी 308519के	02 मई 2015 @

@सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी गई है ।

#### सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	कुमार डी	जेसी 309836एक्स	01 मई 2015 #
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	शेलेस कुमार नायक	जेसी 310015पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	वी देवा दॉस	जेसी 310076एम	01 मई 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	एस रविचन्द्रन	जेसी 310078एक्स	01 मई 2015

नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	के नल्ला थम्बी	जेसी 310079ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	दक्षिणामूर्ति ए	जेसी 310082ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.)	विनय प्रताप	जेसी 310083एच	01 मई 2015
#सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी गई है।			

## सूबेदार (एस के टी) के मूल पद में

नायब सूबेदार (एस के टी)	ए थमील सेल्वम	जेसी 332300एन	01 मई 2015
नायब सूबेदार (एस के टी)	सुखविन्दर सिंह	जेसी 332108के	01 मई 2015
सूबेदार (आर.टी.) के मूल रैंक में			
नायब सूबेदार (आर.टी.)	अवनीश कुमार अवस्थी	जेसी 307928एल	01 मई 2015
सूबेदार (जी. डी.) के मूल रैंक में			
नायब सूबेदार (जी.डी.)	महादेव पाटील	जेसी 310473एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	शेक मश्तानवली	जेसी 310486एच	15 अप्रैल 2015\$
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अनील कुमार एस	जेसी 310490एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	जस्टी वी एन राजु	जेसी 310494एफ	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	दिनेश बाबू एस एस	जेसी 310127पी	06 अप्रैल 2015 @
नायब सूबेदार (जी.डी.)	श्रीराग के	जेसी 310323पी	01 मई 2015 &
नायब सूबेदार (जी.डी.)	मुथ्थप्पा	जेसी 310439एल	01 मई 2015 #
नायब सूबेदार (जी.डी.)	प्रेमाकुमार वी	जेसी 310442एल	01 मई 2015 #
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एस गुनाकरन	जेसी 310459वाई	01 मई 2015 \$

\$सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी गई है।

&amp;सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2014 से दी गई है।

# सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी गई है।

\$ सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी गई है।

## सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल रैंक में

सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सतीश कुमार एम	जेसी 308550 डब्ल्यू	06 जुलाई 2015 @
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	शीजिमोन के वी	जेसी 308614 डब्ल्यू	02 जुलाई 2015 #
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सोहन लाल थगारिया	जेसी 308616 एफ	08 जुलाई 2015 #
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सगायारायन एम एस	जेसी 308640 एक्स	02 जुलाई 2015 #
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	अजय कुमार	जेसी 308643 एल	03 अगस्त 2015 \$
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	नारायण मंडल	जेसी 308658 एम	03 अगस्त 2015 \$
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	ए पलनी चामी	जेसी 308664 एफ	01 अगस्त 2015
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	एस मोहन राव	जेसी 308665 के	10 अगस्त 2015 \$

@सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी गई है।

#सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी गई है।

\$सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी गई है।

## सूबेदार मेजर (जी.डी.) के मूल पद में

सूबेदार(जी.डी.)	कपि मधु	जेसी 309109 ए	04 जुलाई 2015#
सूबेदार(जी.डी.)	एस हबीब अहमद	जेसी 309090 एम	06 जुलाई 2015#
सूबेदार(जी.डी.)	जायसन जॉर्ज	जेसी 309101एन	01 अगस्त 2015
सूबेदार(जी.डी.)	बी वेंकटा रमनैया	जेसी 309103वाई	01 अगस्त 2015
सूबेदार(जी.डी.)	दिनेश बाबू एम जी	जेसी 309098वाई	03 अगस्त 2015 \$

#सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी गई है।

\$सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी गई है।

## सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	बोटे अनिल बबन	जेसी 309918 ए	02 मार्च 2015@
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	प्रशांत मंडल	जेसी 309953 एच	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	जे एच बाबू	जेसी 309985 एल	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	अवधेश कुमार	जेसी 310107 एफ	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	टोडाकर शिवाजी शंकर	जेसी 310108 के	01 अगस्त 2015\$
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	एस बालेन्द्रन	जेसी 310109 एम	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	वर्गिस माइकल	जेसी 310110 एफ	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	महेन्द्र कुमार	जेसी 310112 एम	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	बिजु पी एन	जेसी 310120 एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	ब्रिटो एस	जेसी 310121 एन	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	गुजर प्रफुल्ल कुमार गोरक्षा	जेसी 310122 डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	काना राम बिश्नोई	जेसी 310156 के	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	तुलसीधरन नायर आर	जेसी 310158 पी	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	नवाब सिंह वर्मा	जेसी 310159 एक्स	03 अगस्त 2015 #
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	टोगी कामराजू	जेसी 310161 पी	01 अगस्त 2015

@सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी गई है।

\$सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी गई है।

# सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी गई है।

## सूबेदार (एस के टी) के मूल रैंक में

सूबेदार (एस के टी)	सी प्रविण सिंह के बी	जेसी 332096 ए	01 जुलाई 2015
--------------------	----------------------	---------------	---------------

## सूबेदार (जी. डी.) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जी.डी.)	रिजेश कुमार एम के	जेसी 310462 वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	मलिकार्जुन टिगडि	जेसी 310517 एक्स	01 जुलाई 2015

नायब सूबेदार (जी.डी.)	के अशोक कुमार	जेसी 310402 के	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	मान्ने राम बाबू	जेसी 310516 पी	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	यल्लप्पा सिडबव्वागोल	जेसी 310518 ए	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	बालेसाहेब धर्मोजी	जेसी 310519 एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	सेबस्टियन ई ओ	जेसी 310521 ए	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	जाक्का रंगास्वामी	जेसी 310522 एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अरोकिया बाबू ए	जेसी 310523 एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (जी.डी.)	सीनु एन	जेसी 310524 एन	01 अगस्त 2015
सूबेदार (आर.टी.) के मूल रैंक में			
सूबेदार (आर.टी.)	मोहन श्याम शर्मा	जेसी-307927 एच	01 जुलाई 2015

## नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में

हवलदार (लिपिक एस.डी.)	सुरेश आर	15312918एक्स	अब	जेसी 311429एन	17 अप्रैल 2015 @
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	ए राजा एडवर्ड केन्नेडी	15313198एन	अब	जेसी 311473एक्स	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	मदन मोहन	15313203एन	अब	जेसी 311474ए	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	धरमिन्दर सिंह	15313226पी	अब	जेसी 311475एच	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	विनीस के पी	15313229एच	अब	जेसी 311476एल	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	उदया कुमार आर	15313267वाई	अब	जेसी 311477एन	01 मई 2015

@नायबसूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी गई है।

## नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में

हवलदार (एस के टी)	कडेगला प्रकाश राव	15311515एल	अब	जेसी 311471एम	01 मई 2015 \$
हवलदार (एस के टी)	श्रीनीवास राव मोरला	15313282एन	अब	जेसी 311472पी	01 मई 2015
\$नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी गई है।					

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के पद में

हवलदार (जी.डी.)	एस श्री रामार्लीगम	15312193एच	अब	जेसी 311462एल	01 अप्रैल 2015
हवलदार (जी.डी.)	शीवाप्रसाद आर	15325627डब्ल्यू	अब	जेसी 311480एन	01 मई 2015 #
हवलदार (जी.डी.)	राजेश वी	15312383पी	अब	जेसी 311481डब्ल्यू	01 मई 2015
हवलदार (जी.डी.)	राजागोपालन चेरीयथ	15312388एन	अब	जेसी 311482वाई	01 मई 2015
हवलदार (जी.डी.)	येरागल्ला नागाराजु	15312402पी	अब	जेसी 311483एफ	01 मई 2015
हवलदार (जी.डी.)	पी राघवन	15312409वाई	अब	जेसी 311484के	01 मई 2015
हवलदार (जी.डी.)	सजीव कुमार सी पी	15312420एक्स	अब	जेसी 311485एम	01 मई 2015

# नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी गई है।

## नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में

हवलदार (लिपिक एस.डी.)	वरा प्रसाद वी	15313293ए	अब	जेसी	311478 डब्ल्यू	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	एलुमलाई आर	15313299एफ	अब	जेसी	311479 वाई	01 मई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	अडिमूलम ए	15313301एन	अब	जेसी	311486 पी	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	एम मुनिराज	15313314एल	अब	जेसी	311487एक्स	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	मूर्ति सी	15313415वाई	अब	जेसी	311489 एच	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	ए ई राजासेकरन	15313416एफ	अब	जेसी	311490 एक्स	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	रगुनाथ जी	15313422पी	अब	जेसी	311491 ए	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	के मुगुन्थन	15313441ए	अब	जेसी	311492 एच	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	जी लवरेन्स अन्नु दास	15313444एन	अब	जेसी	311493 एल	01 जून 2015

## नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में

हवलदार (एस के टी)	वी मनिकुट्टन पिल्लई	15313515 के	अब	जेसी	311494 एन	01 जून 2015
-------------------	---------------------	-------------	----	------	-----------	-------------

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के पद में

हवलदार (जी.डी.)	नागाराजु पी	15312204के	अब	जेसी	311464डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
हवलदार (जी.डी.)	टी सेल्वानायागम	15312512के	अब	जेसी	311495डब्ल्यू	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	वेलु आर	15312445के	अब	जेसी	311496वाई	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	बी सेल्वा कुमार	15312536एन	अब	जेसी	311497एफ	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	प्रकाश करेप्पागोल	15312574के	अब	जेसी	311498के	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	सैयद घौस	15312639एम	अब	जेसी	311499एम	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	डी भास्कर रेड्डी	15312670वाई	अब	जेसी	311500डब्ल्यू	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	प्रवीन गोट्टुमुक्कला	15312673एम	अब	जेसी	311501वाई	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	आर कुमारन	15312692एक्स	अब	जेसी	311502एफ	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	एस कृष्णामूर्धि	15312758एच	अब	जेसी	311503के	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	जे स्वामिनाथम	15312764डब्ल्यू	अब	जेसी	311504एम	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	चिनप्पन डी	15312765वाई	अब	जेसी	311505पी	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	ए थिरुमलाई	15312785एम	अब	जेसी	311506एक्स	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	एम मूरुगन	15312886ए	अब	जेसी	311507ए	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	जेम्स जोशेफ	15312898पी	अब	जेसी	311508एच	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	एल चन्द्राशेकरन	15313001एम	अब	जेसी	311509एल	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	रमेश जे	15313026वाई	अब	जेसी	311510ए	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	एम कुबेन्द्रन	15313054एल	अब	जेसी	311511एच	01 जून 2015
हवलदार (जी.डी.)	जी रामू	15313295एल	अब	जेसी	311512एल	01 जून 2015

## नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में

हवलदार (लिपिक एस.डी.)	भीका राम	15313408 एच	अब	जेसी	311488 ए	01 जून 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	विजय कुमार सिंह	15313473 एच	अब	जेसी	311513एन	01 जुलाई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	डी रविचन्द्रन	15310021 पी	अब	जेसी	311514डब्ल्यू	01 जुलाई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	बलबीर सिंह	15313336 के	अब	जेसी	311515वाई	01 जुलाई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	एल मारियप्पन	15313342एक्स	अब	जेसी	311516 एफ	01 जुलाई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	एस सुरेश	15313341 पी	अब	जेसी	311517 के	01 जुलाई 2015
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	आई विक्टर ईम्मानुवेल	15311371 एन	अब	जेसी	311523 एक्स	01 अगस्त 2015@
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	एस मारिया अरोकिअम	15311584 एफ	अब	जेसी	311524 ए	01 अगस्त 2015@
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	पुष्पराज टी	15313276 ए	अब	जेसी	311525 एच	01 अगस्त 2015#
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	बी मोहन दास	15311166एम	अब	जेसी	311526एल	01 अगस्त 2015\$

@ नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2015 से दी गई है।

# नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी गई है।

\$नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी गई है।

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के पद में

हवलदार (जी.डी.)	विनु वि कलारिकल	15325858एम	अब	जेसी	311518 एम	01 जुलाई 2015
हवलदार (जी.डी.)	पिंजो केजे	15330576एक्स	अब	जेसी	311519 पी	01 जुलाई 2015
हवलदार (जी.डी.)	दीलिप सिंह	15313339एक्स	अब	जेसी	311520 के	01 जुलाई 2015
हवलदार (जी.डी.)	कुमारन जि	15313430एन	अब	जेसी	311521एम	01 जुलाई 2015
हवलदार (जी.डी.)	एम वेलु	15313446 वाई	अब	जेसी	311527एन	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	राजन एस	15313450 एफ	अब	जेसी	311528 डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	गोपाल राव जापानी	15313482के	अब	जेसी	311529वाई	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	रजी पी	15313361 एच	अब	जेसी	311530 एन	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	सजीव पी वी	15313631एम	अब	जेसी	311531 डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	चिन्नप्पा राज ए	15313397 एफ	अब	जेसी	311632वाई	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	एल रवि	15313750 एच	अब	जेसी	311533 एफ	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	रजिथ कुमार के के	15313856 पी	अब	जेसी	311534 के	01 अगस्त 2015
हवलदार (जी.डी.)	गजानन वी	15313873 पी	अब	जेसी	311535 एम	01 अगस्त 2015

## बम्बई इंजीनियर ग्रुप

## सूबेदार मेजर (कर्लक एस डी) के रैंक में

सूबेदार कर्लक एस डी	शालीगाराम यादव	जे सी 350324ए	01 मई 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	भुषण देबनाथ	जे सी 350326एल	01 मई 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	बाबू के टी	जे सी 350327एन	01 मई 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	शाजी पी जी	जे सी 350349एम	01 जून 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	नंद लाल कौशलिया	जे सी 350375एन	01 जुलाई 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	रमेश चन्द्र	जे सी 350406एच	01 जुलाई 2015
सूबेदार कर्लक एस डी	राम गोपाल	जे सी 350508एन	01 अगस्त 2015

## सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार जी डी	कशमीर सिंह	जे सी 350243ए	01 मार्च 2015
सूबेदार जी डी	निर्मल सिंह	जे सी 350766वाई	01 मार्च 2015
सूबेदार जी डी	बलदेव सिंह	जे सी 350974 के	01 मई 2015
सूबेदार जी डी	खुरशीद अली	जे सी 350975डब्ल्यू	01 जून 2015
सूबेदार जी डी	गोधन लाल	जे सी 350976वाई	29 जून 2015
सूबेदार जी डी	दीवन सिंह	जे सी 350979एम	01 जुलाई 2015
सूबेदार जी डी	गिरधर सिंह	जे सी 351000एफ	01 जुलाई 2015
सूबेदार जी डी	विरु सिंह	जे सी 351003पी	01 अगस्त 2015

## सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार एस के टी	चन्द्र मोहन	जे सी 330715डब्ल्यू	01 जून 2015
सूबेदार एस के टी	नारायन राम	जे सी 331339एन	01 जून 2015
सूबेदार एस के टी	बिरेन्द्र सिंह	जे सी 349924डब्ल्यू	01 जून 2015
सूबेदार एस के टी	बलवीर सिंह	जे सी 349963पी	01 जून 2015
सूबेदार एस के टी	धानेधर प्रभाकर शिवराम	जे सी 351303पी	01 जुलाई 2015

## सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जी डी	डोकने संजय पांडुरंग	जे सी 352276के	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	परमा नंद	जे सी 352279एक्स	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	निर्मल सिंह	जे सी 352298एच	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	जानकर शंकर नाना	जे सी 352307वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	सपकाल नंद किशोर पांडुरंग	जे सी 352314पी	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	भोसले प्रमोद श्रीपती	जे सी 352319एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	उगाडे वसंत ईश्वर	जे सी 352322एन	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	निशान सिंह	जे सी 352320एच	05 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	कुलदीप सिंह	जे सी 352221ए	13 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	बाबू सिंह	जे सी 352299एल	16 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	शिवनकर सुनील बाजीराव	जे सी 352316ए	28 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जी डी	दविन्द्र सिंह	जे सी 352338वाई	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	चिकने संतोश केशव	जे सी 352339एफ	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	निकम सुनील रुस्तमराव	जे सी 352345पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	लाल बहादुर सिंह	जे सी 352346एक्स	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	पवार बालासाहेब सखाराम	जे सी 352348एच	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	सतेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	जे सी 352351एच	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	सुखदेव सिंह	जे सी 352353एन	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	मोहम्मद इरशाद अंसारी	जे सी 352354डब्ल्यू	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	उपेन्द्र नाथ राय	जे सी 352355वाई	01 मई 2015

नायब सूबेदार जी डी	भियुनगडे दगडु गनपती	जे सी 352357के	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	वेद प्रकाश	जे सी 352391के	01 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	सुरेश कुमार	जे सी 352304एल	02 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	गुरमीत सिंह	जे सी 352349एल	02 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	गुरमीत सिंह	जे सी 352352एल	02 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	उदावंत मनोज साहेबराव	जे सी 352347ए	09 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	विजेन्द्र कुमार	जे सी 352289एफ	15 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	नागेन्द्र सिंह	जे सी 352356एफ	16 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	कुलदीप सिंह	जे सी 352220एक्स	20 मई 2015
नायब सूबेदार जी डी	नागपुरे दिलीपकुमार गोविंदराव	जे सी 352358एम	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	दर्शन सिंह	जे सी 352359पी	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	बाबु लाल परीक	जे सी 352361एम	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	कुरबान हसन	जे सी 352362पी	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	दलजीत सिंह	जे सी 352364ए	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	अनेकर विठ्ठल राजाराम	जे सी 352365एच	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	पाटिल भरत हिलाल	जे सी 352366के	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	लाल बहादुर सिंह यादव	जे सी 352367एन	01 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	शंकर सिंह	जे सी 352360के	04 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	हवा सिंह	जे सी 352363एक्स	11 जून 2015
नायब सूबेदार जी डी	जाधव नानासाहेब तुकाराम	जे सी 352368डब्ल्यू	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	अनिल कुमार	जे सी 352370एन	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	भोसले गनपत विठ्ठल	जे सी 352371डब्ल्यू	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	योगेन्द्र सिंह यादव	जे सी 352373एफ	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	महेश सिंह मुदोतिया	जे सी 352374के	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	चमकौर सिंह	जे सी 352375एम	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	ओम प्रकाश जोगी	जे सी 352377एक्स	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	शिंदे राजकुमार साहेबराव	जे सी 352378ए	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	सुर्यवंशी मनोहर आसाराम	जे सी 352379एच	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	शैलेन्द्र प्रताप सिंह	जे सी 352369वाई	02 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	दहाले रविन्द्र सुरेश	जे सी 352373वाई	03 जुलाई 2015
नायब सूबेदार जी डी	सोहन सिंह चौहान	जे सी 352397एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	बहादुर सिंह	जे सी 352398एन	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	मोरे अनिल आत्माराम	जे सी 352399डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	दिलबाग सिंह	जे सी 352401एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	मोहम्मद इरफान	जे सी 352403एन	01 अगस्त 2015

नायब सूबेदार जी डी	परमिंदर सिंह	जे सी 352404डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	जसपाल सिंह	जे सी 352420एन	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	शशीकांत यादवा	जे सी 352421डब्ल्यू	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	मोहम्मद याहिया खान	जे सी 352423एफ	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	अवतार सिंह	जे सी 352445ए	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	शिंदे प्रमोद गोविंद	जे सी 352419वाई	02 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	पिंगले सयाजी नामदेव	जे सी 352382एच	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	पवार महादेव वामन	जे सी 352402एल	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	निबालकर संजय कुमार सी	जे सी 352418डब्ल्यू	06 अगस्त 2015
नायब सूबेदार जी डी	चौगले ईश्वरा सदाशिव	जे सी 352424के	10 अगस्त 2015

सूबेदार (कर्लक एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्लक एस डी	दलजीत सिंह	जे सी 351876ए	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	महेश कुमार दास	जे सी 351900एल	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	विष्णु चन्द्र पंडा	जे सी 351901एन	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	रविन्द्र सिंह यादव	जे सी 351919के	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	राज कुमार पटेल	जे सी 351924पी	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	हरि राम शर्मा	जे सी 351926ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	राजपुत उमा शंकर सिंह राधाकृष्णा	जे सी 352204ए	01 मई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	प्रवीन कुमार	जे सी 351918एफ	01 जून 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	मोहम्मद रियाजुद्दीन	जे सी 351940एम	01 जून 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	सोनु	जे सी 352235ए	01 जून 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	करीमुल्ला शेंस्क	जे सी 351941पी	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	त्रिलोचना मोहन्नी	जे सी 351943ए	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	त्रिलोचन सिंह जग्गी	जे सी 351945एल	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	घोरपडे राजेन्द्र	जे सी 351946एन	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	महेश प्रसाद मिश्रा	जे सी 351947डब्ल्यू	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	राम किशोर यादव	जे सी 351948वाई	01 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	मुन्ना लाल बघेल	जे सी 351963एन	02 जुलाई 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	राम चन्द्र शिवहरे	जे सी 351086एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	परविंदर सिंह	जे सी 351944एच	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	अहिवले विजय ध्यानु	जे सी 351962एल	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार कर्लक एस डी	वी एन शिंजी	जे सी 351970के	01 अगस्त 2015

नायब सूबेदार कर्लक एस डी	राम प्रकाश	जे सी 351973एक्स	01 अगस्त 2015
--------------------------	------------	------------------	---------------

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार एस के टी	तोरडमल भानुदास साहेबराव	जे सी 352389एम	30 जुलाई 2015
नायब सूबेदार एस के टी	पटेल मुकेश भाई कानाजी भाई	जे सी 352915ए	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	मनोज कुमार मिश्रा	जे सी 352912एम	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	जया कुमार एम	जे सी 352922डब्ल्यू	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	आर मोहम्मद रफीक राजा	जे सी 352676डब्ल्यू	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	विशाल कुमार	जे सी 352710के	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	जितेन्द्र सिंह	जे सी 352933एच	03 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	शेंडे रामकृष्ण वी	जे सी 352188एन	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	चौधरी बापु गजराम	जे सी 352238एन	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	भापकर हनुमंत उत्तमराव	जे सी 352388के	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	कनगराज एम के	जे सी 352394एक्स	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	गुरमीत सिंह	जे सी 352614डब्ल्यू	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	अनिल कुमार सिंह	जे सी 352909एम	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	सैयद रियाज अहमद	जे सी 352910एफ	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	पालसकर रामदास निवृत्ती	जे सी 352921एन	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	जयेन्द्र प्रसाद	जे सी 352925के	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	श्रीधर साहु	जे सी 352926एम	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	बलवंत सिंह	जे सी 352927पी	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	अजी कुमार वी	जे सी 352929ए	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	खेमेन्द्र कुमार	जे सी 352931एक्स	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	सी अचयुता रेडडी	जे सी 352932ए	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	पी चेलादुराई	जे सी 352936डब्ल्यू	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	हरि ओम शर्मा	जे सी 352967डब्ल्यू	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	दिगंबर गौतम	जे सी 353209एल	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	सैयद जाकिर हुसैन	जे सी 353211एच	04 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	जोशेफ टी	जे सी 352680वाई	05 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	विरेन्द्र सिंह दसिला	जे सी 352682के	05 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	फुल चन्द	जे सी 352393पी	06 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	मुरोसन जी	जे सी 352728एफ	06 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	अनिल कुमार	जे सी 352914एक्स	06 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	अरिंदं कुमार	जे सी 352924एफ	06 अगस्त 2015

नायब सूबेदार एस के टी	एम करुनानिधी	जे सी 352390एफ	07 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	कल्लम श्रीनिवासा रेडडी	जे सी 352917एल	07 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	जितेन्द्र प्रताप	जे सी 352187एल	10 अगस्त 2015
नायब सूबेदार एस के टी	गोडे रविन्द्र बजरंग	जे सी 352937वाई	12 अगस्त 2015

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार संगीतकार	बुधी बल थापा	जे सी 352386वाई	23 जून 2015
-----------------------	--------------	-----------------	-------------

सूबेदार (आर टी) के रैंक में

नायब सूबेदार आर टी	जगदीप सिंह	जे सी 349896यी	01 मई 2015
--------------------	------------	----------------	------------

अनुराग शर्मा  
अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 18 दिनांक 29 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

## नियमित सेवा

सूबेदार मेजर एस मुरुगेसन	(JC – 826211F)	01 अगस्त 2015
सूबेदार बसाटे हनमंत भिमराव	(JC-826274K)	01 मार्च 2015
सूबेदार विनोद कुमार	(JC-826260K)	02 मार्च 2015 / 01 मार्च 2015*
सूबेदार दीप सिंह	(JC-826261M)	01 अप्रैल 2015
सूबेदार लखविन्दर सिंह	(JC-826262P)	01 जुलाई 2015
सूबेदार रावसाब जिबागोल	(JC-826263X)	01 अगस्त 2015
सूबेदार जगदिश कुमार चौधरी	(JC-826265X)	01 अगस्त 2015
सूबेदार चिलगर बिबीसेन सजैराव	(JC-826266L)	01 सितम्बर 2015

बी.एच.एम. सुरेश गानिगर (14409777F) (Now JC-826312P)	01 मार्च 2015
बी.एच.एम. चन्द्रा (2791722W) (Now JC-826313X)	02 मार्च 2015 / 01 मार्च 2015*
बी.एच.एम. विरेन्द्र सिंह (13758731L) (Now JC-826314A)	01 अप्रैल 2015
बी.एच.एम. गणेशा कुमार (14407887X) (Now JC-826315H)	11 जुलाई 2015 / 01 जुलाई 2015*
बी.एच.एम. हिजाम चन्द्रामनी सिंह (7778568Y)(Now JC-826316L)	01 अगस्त 2015
बी.एच.एम. दलवी कैलास अबाजी (13620004P) (Now JC-826317N)	01 अगस्त 2015
बी.एच.एम. हिमान्शु नेंगी (4076286M) (Now JC-826318W)	01 सितम्बर 2015
बी.एच.एम. कमल किशोर फरोडा (3187979H) (Now JC-826319Y)	01 सितम्बर 2015

\* अपैतनिक वरिष्ठता दिनांक

एन बी मनी  
अवर सचिव

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 19, दिनांक 30 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

श्री ए एम खेड़लेकर को वरिष्ठ लेखा अधिकारी—II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.10.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर।

श्रीमती ललिथाम्बा वाई को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित)के रूप में डी आर डी ओ में 21.07.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रु0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु0 4600 पर।

श्री के पी सदन को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रु0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु0 4600 पर।

श्रीमती हेमावती फ्रांसिस को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित)के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर।

श्री सुवरो बैनर्जी को वरिष्ठ भंडार अधिकारी—I, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 01.01.2014 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 6600 पर।

राजीव रंजन सिन्हा  
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

## सेना शाखा

सं. 20, दिनांक 30 दिसम्बर 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमत सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लै0 के पद पर

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक अल्प सेवा आयोग लेपिटनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 10 मई 2014 को एस एस सी-37 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 45880एन	रामाकृष्णा	इंजिनियर्स	10 अक्टू 11

पढ़ें

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 45880एन	एच रामाकृष्णा	इंजिनियर्स	10 अक्टू 11

प्रदीप गोविन्दन  
लै0 कर्नल  
एमएस 8बी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, dated 9th January 2016

## ARMY BRANCH

No. 10, dated 23rd December 2015—the President is pleased to make the following appointments :-

## REGULAR ARMY

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The under mentioned three officers of SSCW(Tech)-11 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 15 Mar 2014. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 17 Mar 2013 under the provisions of AI 10/96(Corrigendum No 9 dated 01 Jun96 to SAI 1/S/92):-

CHITRA PRATAP(SS-47292Y) EME (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below KAVITA BHATT (SS-47290N) ENGRS, SONAM DUBEY (SS-47319L) EME (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below IYER ANUPAMA GANESH (SS-47311Y) ENGRS and SNEHA RAWAT (SS-47352H) EME (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below NIDHI PAL (SS-47350X) ENGRS.

The under mentioned six officers of SSC(NT)-96 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 14 Sep 2013. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 14 Sep 2013 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :-

GOVIND KUMAR BHATT (SS-46678M), AC with the seniority below MANU THOMAS (SS-46677K), ARTY, MUKESH SINGH BISHT (SS-46745M), INF with the seniority below MANISH ZARANDE (SS-46744K), INF, SATENDRA SINGH BUNDELA (SS-46776M), ARTY with the seniority below ANUGRAHA ISSAC SINGHA (SS-46774L), AVN, PANKAJ KUMAR SINGH (SS-46778X), INF with the seniority below ANUGRAHA ISSAC SINGHA (SS-46774F), AVN and with the seniority above SARTAJ SINGH (SS-46779A), INF, ROHIT KUMAR GREWAL (SS-46803L), ARTY with the seniority below JAYANT KUMAR DUBEY (SS-46799N), AVN, KIRAN N(SS-46810F), ARTY with the seniority below VIVEK KUMAR TIWARI (SS-46809M), INF.

The under mentioned five officers of SSC(NT)-97 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 15 Mar 2014. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 15 Mar 2014 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :-

NARENDRA KUMAR SINGH(SS-47120K), INF with the seniority below VINAY NARAIN SINGH (SS-47118M), INF, KUMAR GAURAV (SS-47165K), AOC with the seniority below ARPIT KAPILA (SS-47164F), ASC, SANDEEP SINGH (SS-47183M), SIGS with the seniority below AMITESH DIXIT (SS-47182K), AC, MEGHANEEL BORA (SS-47217P), INF with the seniority below SUMIT KARNDHAR (SS-47216M), INF and UMAR ALI M (SS-47236A), INF with the seniority below MADHAV KUMAR (SS-47235X), INF.

The under mentioned three officers of SSC(Tech)-39 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 14 Sep 2013. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 16 Sep 2012 under SAI 1/S/94 as amended :-

ANKIT KUMAR NAIN(SS-46867W) AVN (date of SSC on probation-08 Oct 12) with the seniority below SPARSH SHRIVASTAVA (SS-46865L) AOC, ABHISHEK YADAV (SS-46896L) ASC (date of SSC on probation-08 Oct 12) with the seniority below NAVNEEN MISHRA (SS-46895H) ARTY and LIJU RAJAN (SS-46952Y) EME (date of SSC on probation-08 Oct 12) with the seniority below BASANT CHAUHAN (SS-46951W) SIGS whose name has been published in the Gazette of India dated 29 November 2014.

The under mentioned three officers of SSC(Tech)-40 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No

B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech) Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 15 Mar 2014. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 17 Mar 2013 under SAI 1/S/94 as amended:-

K NAGARJUN(SS-47289Y), INF (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below MUNJE SAGAR SUDHEER(SS-47288W), ENGRS, ARUN KUMAR SHARMA (SS-47304H), EME (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below VIPIN KUMAR RAWAT (SS-47303A), AVN and ASHEESH RATHEE (SS-47339Y) SIGS (date of SSC on probation-17 Mar 13) with the seniority below DINESH KUMAR (SS-47338W) SIGS.

SN MISHRA  
Lt Col  
AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 11, dated 23rd December 2015—The President is pleased to make the following appointments :-

#### REGULAR ARMY

#### (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The under mentioned 14 officers of SSCW(Tech)-12 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 13 Sep 2014. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 15 Sep 2013 under the provisions of AI 10/96(Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92):-

SS NO	NAME	Arms/ Services	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-47696F	PREETI MUDELA	EME	07-Oct-13
SS-47697K	PASAD JANKHNA CHANDRESH	EME	07-Oct-13
SS-47698M	VYSHNAV DEVI B	ENGRS	07-Oct-13
SS-47703M	GARIMA PUNIANI	ENGRS	07-Oct-13
SS-47711L	SATMEET KAUR	SIGS	07-Oct-13
SS-47712N	JUGWINDER KAUR	ASC	07-Oct-13
SS-47718P	DEEPA JHA	EME	07-Oct-13
SS-47723A	DEEPSHIKHA BARBHUIYA	ENGRS	07-Oct-13
SS-47730W	AJITHA V	ENGRS	07-Oct-13
SS-47735P	SWATI SENGAR	SIGS	07-Oct-13
SS-47738H	ASWATHY S	EME	07-Oct-13
SS-47742L	SONIA SANGWAN	ASC	07-Oct-13
SS-47747K	S M ANURAADHA	ENGRS	07-Oct-13
SS-47767X	GABRIELA RAJAN	ENGRS	07-Oct-13

The under mentioned 17 officers of SSCW(NT)-12 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 13 Sep 2014. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 13 Sep 2014 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :-

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-47542P	MOKSHITA SINGH	ASC
SS-47548W	TALEKAR NAMRATA VIKRAMSINH	AAD
SS-47570F	BHUMIKA SINGH RATHORE	SIGS
SS-47577L	SUMAN RAI	ASC
SS-47579W	SHREYA	ASC
SS-47588X	BHOOMIKA	INT
SS-47592A	EKSHITA RANA	AVN
SS-47604K	VINCEY MATHEW	SIGS
SS-47605M	PRAGYA SINHA	JAG
SS-47611A	MOHITMA BADKUR	JAG
SS-47619M	SANKRIPTI CHAUDHARY	INT
SS-47623P	RINKU YADAV	AOC
SS-47655X	DAVINDER KAUR	AOC
SS-47662N	RESHMA ELIZABETH JOHN	AOC
SS-47666K	JYOTI CHAUHAN	AOC
SS-47675L	RENU KAUSHIK	ASC
SS-47691H	R VAISHNAVI	AOC

The under mentioned 95 officers of SSC(NT)-98 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 13 Sep 2014. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 13 Sep 2014 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/ PS-2(a)921/D(AG) dt 20 Jul 06 :-

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-47543X	CHANDER SHEKHAR GULERIA	INF
SS-47544A	YUVARAJ N	AVN
SS-47545H	ANKUR KUNAL SINGH	AC
SS-47546L	MANINDER PAL SINGH	Avn
SS-47547N	SAYED MURTAZA ALI JAFRI	JAG
SS-47549Y	SHASHANK SHARMA	AOC
SS-47550N	KARAMVEER SINGH JODHA	INF
SS-47552Y	ADESH SINGH BISHT	INF
SS-47553F	NIRBHAY GOEL	AVN
SS-47554K	KARTIK GUPTA	MECH
SS-47555M	NAVEEN GAIROLA	ARTY
SS-47557X	NILANSHU RANGI	AC
SS-47559H	ABHILASH SINGH	ARTY

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-47560X	SHUBHAM VASHISHTHA	ARTY
SS-47562H	GAIPUIJAI THAIMEI	MECH
SS-47564N	NAVNEET JARYAL	ARTY
SS-47566Y	ABHUDAYA SINGH TARAGI	INF
SS-47567F	KARTIK DURGA	ARTY
SS-47568K	SABARI P M	ARTY
SS-47571K	T N HEMANATHAN	ENGRS
SS-47572M	ANIKET RAMPAL	ASC
SS-47573P	ANISH FRANKLIN F	EME
SS-47574X	SHARMA YASH SATISH	INF
SS-47576H	SANDEEP BHATT	ENGRS
SS-47578N	UTSAV PAL	AC
SS-47580L	ASHUTOSH	AAD
SS-47582W	PRANAY PANWAR	INF
SS-47583Y	RAJANEESH SIDDHI L R	MECH
SS-47586M	MANOJ KUMAR	INF
SS-47587P	SAM MATHAI	AC
SS-47589A	SUKHDEEP SINGH	AOC
SS-47591X	NEERAJ SINGH	MECH
SS-47594L	KULKARNI KUNAL SANJEEV	INF
SS-47595N	KATTI SUPRIT ASHOK	INF
SS-47596W	AVINASH CHIMANKA	JAG
SS-47598F	E ANUDEEP REDDY	SIGS
SS-47599K	TUSHAR SUBBA	INF
SS-47600N	NIKHIL VASWAN	AVN
SS-47602Y	JADHAV ANIRUDHA BHARAT	INF
SS-47603F	ANDREW THOMAS FULLER	ARTY
SS-47606P	VARUN J	ARTY
SS-47607X	VARUN SEHGAL	ARTY
SS-47609H	VIVEK RAM H V	ENGRS
SS-47610X	NAVEEN MAN	ASC
SS-47613L	GAURAV AGNIHOTRI	ASC
SS-47615W	PRANAVKUMAR HANAMANT AGAWANE	AAD
SS-47617F	SIDDHARTH A RANA	AVN
SS-47620F	VINAYAK ARYA	AVN

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-47624X	ARVIND R SHARMA	INF
SS-47625A	GAGANDEEP SHARMA	INF
SS-47626H	AJIT LIMBU	INF
SS-47627L	RAGHURAJ MENON	INF
SS-47629W	PRASHANTA GOGOI	INF
SS-47630L	DARPAN SINGH SAINI	INF
SS-47631N	SIDHANT SHARMA	SIGS
SS-47632W	NAMAN TRIPATHI	ARTY
SS-47633Y	VISHAL BISHT	ASC
SS-47634F	MANAS KUMAR SINGH	ARTY
SS-47635K	MS DAWNGSANGA	INF
SS-47636M	SIDDHANT SATCHIT HASABNIS	AAD
SS-47637P	RAJ KUMAR	INF
SS-47638X	KULDEEP SINGH RATHORE	AOC
SS-47639A	HARMANPREET SINGH ARORA	ARTY
SS-47640P	KEDAR NATH UPADHYAY	INF
SS-47642A	PIYUSH SHARMA	AOC
SS-47643H	RAJ PRAKASH	MECH
SS-47644L	ABHISHEK SINGH	AC
SS-47646W	LIKITH GOWDA P S	SIGS
SS-47649K	TANVIR SINGH	AAD
SS-47650Y	SANJAY SINGH ANNA	INF
SS-47651F	AKSHAY PUNJ	MECH
SS-47653M	HARPREET SINGH ARNEJA	ARTY
SS-47658L	GAGANJIT SINGH	AC
SS-47659N	SARFARAZ AHMED	INF
SS-47660H	SURAJ GAUR	ASC
SS-47663W	INDERPREET SINGH	AC
SS-47664Y	RAJSHEKHAR SARKAR	ARTY
SS-47667M	ANKIT JOSHI	INT
SS-47668P	SHASHANK TRIPATHI	AOC
SS-47669X	AMIT SAXENA	INF
SS-47670M	GAVI SUDARSHAN VIVEK	EME
SS-47671P	PIYUSH THAKUR	AOC
SS-47672X	TURAGA SAMEER	ASC
SS-47673A	JOSHI NISHANT NITIN	ARTY

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-47674H	MANSATKAR SINGH	AVN
SS-47676N	SUMIRAN SAXENA	ENGRS
SS-47678Y	S RAMACHANDRAN	ARTY
SS-47680W	NITESH CHAUHAN	JAG
SS-47683K	PAWAN NEHRA	JAG
SS-47684M	SUBHASH CHAND GHILDIYAL	INF
SS-47687A	SAURABH KUMAR SINGH	ARTY
SS-47688H	ANKUR SINGH	INF
SS-47689L	NIRBHAY BHANDARKAR	INF
SS-47692L	ARNAV PRATEEK SINGH PARMAR	ASC
SS-47695Y	DALIP RANA	AC

The under mentioned one officer of SSC(Tech)-37 Course was granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 15 Sep 2012. He has also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 18 Sep 2011 under SAI 1/S/94 as amended:-

SUBHASIS HAZRA (SS-45969A) SIGS (date of SSC on probation-10 Oct 11) with the seniority below ANUJ KUMAR (SS-45968X) INF, whose name has published in the Gazette of India dated 10 May 2014.

The under mentioned 44 officers of SSC(Tech)-41 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 13 Sep 2014, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 15 Sep 2013 under SAI 1/S/94 as amended:-

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE	DATE OF SSC(ON PROBATION)
SS-47699P	DEEPAK KUMAR SAINI	EME	07-Oct-13
SS-47701F	KESHAV SHARMA	AAD	07-Oct-13
SS-47702K	ATUL NARA	ENGRS	07-Oct-13
SS-47705X	JAPJEET SINGH	SIGS	07-Oct-13
SS-47706A	KARANDEEP SINGH	INF	07-Oct-13
SS-47707H	SAJEN SOMAN	ENGRS	07-Oct-13
SS-47708L	AYUSH DEVLIYAL	EME	07-Oct-13
SS-47710H	VINAY PRATAP	ENGRS	07-Oct-13
SS-47713W	MANISH KUMAR JHA	ARTY	07-Oct-13
SS-47714Y	VEMULA SHRAVAN KUMAR	EME	07-Oct-13
SS-47715F	MALLELA LOKESH CHAKRAVARTHI	ENGRS	08-Apr-13
SS-47717M	PARWINDER SINGH	ENGRS	07-Oct-13

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE	DATE OF SSC(ON PROBATION)
SS-47719X	PARVENDRA SINGH	INF	07-Oct-13
SS-47720M	ASHISH KONDAL	INF	07-Oct-13
SS-47721P	MANISH YADAV	EME	07-Oct-13
SS-47722X	AMRITANSH JOHRI	SIGS	07-Oct-13
SS-47724H	NITISH ARORA	SIGS	07-Oct-13
SS-47725L	MEHUL MANOHARAN	ENGRS	07-Oct-13
SS-47726N	UTKARSH MAURYA	ARTY	07-Oct-13
SS-47728Y	VARUN KUMAR	INF	07-Oct-13
SS-47731Y	MANE NILESH SANDIPAN	MECH	12-Oct-13
SS-47733K	AMIT TIWARI	ENGRS	07-Oct-13
SS-47734M	CHETANVEER SINGH	ARTY	07-Oct-13
SS-47736X	AJAY NAIR V M	ENGRS	07-Oct-13
SS-47737A	NAVEEN SEN	EME	07-Oct-13
SS-47739L	PREM MALHOTRA	SIGS	08-Apr-13
SS-47740A	PRITPAL SINGH	INF	07-Oct-13
SS-47741H	INDERPAL SINGH	SIGS	07-Oct-13
SS-47743N	KUNCHE RAJASHEKAR VARA PRASAD	SIGS	07-Oct-13
SS-47744W	MAYANK JAIN	SIGS	07-Oct-13
SS-47746F	AAKASH V	ENGRS	21-Oct-13
SS-47748M	AMIT SINDHU	AVN	07-Oct-13
SS-47749P	SUROJEET BANERJEE	EME	07-Oct-13
SS-47751M	NIKHIL MAKHANI	SIGS	07-Oct-13
SS-47752P	SOMESH SHARMA	ASC	07-Oct-13
SS-47754A	ARNAV GUPTA	ENGRS	07-Oct-13
SS-47756L	KRISHNA VEER SINGH	EME	08-Apr-13
SS-47757N	SAMRAT KUMAR GHOSH	AOC	12-Oct-13
SS-47758W	ANANT DEEP SINGH WADHWA	EME	07-Oct-13
SS-47760N	ARPIT KHERA	EME	08-Apr-13
SS-47761W	YERIKALAPUDI GOvardhan RAO	EME	10-Oct-13
SS-47763F	ANKIT MALHOTRA	AC	07-Oct-13
SS-47765M	MAYANK ARORA	EME	08-Apr-13
SS-47766P	AKSHAY TRIPATHI	SIGS	07-Oct-13

P GOVINDAN  
Lt Col  
AMS 8B

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION**

No. 12, Dated 23rd December 2015—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientist(s) ‘B’ (Group ‘A’) in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹ 15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay ₹ 5400/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1.	2013AB1052	Shri Deokar Arunkumar	CVRDE, Chennai	14.08.2013
2.	2011AB1017	Shri Vinod P	DEBEL, Bengaluru	13.06.2011
3.	2013AB1051	Shri Mukesh Roy	ITR, Chandipur	22.01.2013
4.	2012AB1086	Ms. Soni Kumari	SSPL, Delhi	31.10.2012

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individual as temporary Scientist ‘E’ (Group ‘A’) in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of ₹ 37,400-67,000(Pay Band-4) + Grade Pay ₹ 8,700/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1	2014AE1003	Shri Premprakash Yeshwant Borse	ARDE, Pune	27.02.2014

RAJEEV RANJAN  
Jt. Director/Pers(DRDS-II)

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION**

No. 13, Dated 28<sup>th</sup> December 2015—The President is pleased to make the following Appointment :-

Sh. Manish Kumar Gupta to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 05.06.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Ranvijay Kumar to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 15.06.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. K Prashant to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 23.06.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Brijmohan Singh Chauhan to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 03.08.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

RAJEEV RANJAN SINHA  
Dy Director (Pers)

**ARMY BRANCH**

No. 14, dated 28th December 2015—The President is pleased to make the following promotions: -

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

**(ARMY MEDICAL CORPS)**

Brig (& equivalent)to be Maj Gen (& equivalent)

Jagtar Singh (MR-04276N)	-	01-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-15.
DS Bhakuni, VSM (MR-04758H)	-	01-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-15.
TS Ahluwalia (MR-04954H)	-	23-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 17-06-15.
A Banerji, SM (MR-04428K)	-	18-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 17-06-15.
R Grewal (MR-04434X)	-	15-07-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-15.

## Col (&amp; Equivalent) to be Brig (&amp; equivalent)

SD Mulgund (MR-04756X)	-	08-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 30-05-12
YS Bisht (MR-05354M)	-	01-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-04-14.
RBM Krishna (MR-05609F)	-	10-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-05-14.
Amit Roy (MR-04923H)	-	04-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-02-15.
KK Nandwani (MR-05137W)	-	07-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-15.
SK Singh (MR-05303Y)	-	21-07-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-15.
P Puri (MR-05884F)	-	06-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-06-15.
Purnendu, SM(D), VSM (MR-06084P)	-	10-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-06-15.
K Srikanth (MR-05400W)	-	29-07-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-06-15.
RK Gupta (MR-05398K)	-	03-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-06-15.
K Ghosh (MR-05068L)	-	11-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-15.
AP Padhi (MR-03388F)	-	02-08-2003

Gazette Notification regarding grant of promotion for Brigadier published in Gazette of India on 22 Feb 2014 in respect of above mentioned officer is hereby cancelled.

## Lt Col (&amp; Equiv) to be Col (&amp; equiv)

Ajoy Menon (MR-06332A)	-	05-02-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-02-12
---------------------------	---	---

GAZETTE NOTIFICATION REGARDING GRANT OF PROMOTION FOR COLONEL PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA ON 20 JUN 2015 IN RESPECT OF ABOVE MENTIONED OFFICER IS HEREBY CANCELLED.

Vinoy Kumar (MR-06395H)	-	06-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-04-12
Harkirat Singh (MR-06349N)	-	09-12-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-05-12
AK Singh (MR-06357M)	-	09-12-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-05-12

Prafull Kumar (MR-07189L)	-	22-07-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-07-13
NK Prasanna (MR-07320X)	-	31-07-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-07-13
GR Mishra (MR-07155X)	-	03-07-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-01-14
SK Sengupta (MR-06943P)	-	14-09-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-01-14
M Chaudhary (MR-06619X)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-01-14
Rajshree Singh (MR-06661W)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-01-14
K Venkatnarayan (MR-06621P)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-01-14
A Hazra (MR-06622X)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-01-14
Gaurav Kumar (MR-06623A)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-01-14
VK Maurya (MR-06625L)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-01-14
Navreet Singh (MR-06626N)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-14
K Anand Shankar (MR-06630W)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-02-14
P Sreenivasa Rao (MR-06629F)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-02-14
Ajay Bisht (MR-06631Y)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-02-14
Amitabh Tiwari (MR-06633K)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-02-14
A Sudar (MR-06634M)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-03-14
SI Totlani (MR-06636X)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-03-14
TJ Rappai (MR-06641H)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-03-14
Chetan Sood (MR-06642L)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-03-14
U Kapoor (MR-06646F)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-03-14
Santosh Kumar (MR-06649P)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-03-14

Surjit Sahu (MR-06650K)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-03-14
RA Kumar (MR-06652P)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-03-14
D Kalra (MR-06653X)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-03-14
Vani Suryam (MR-07066Y)	-	20-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-03-14
Dhirendra Kumar (MR-07387W)	-	02-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-14
AK Vasudeva (MR-07207H)	-	10-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-04-14
Shashi Shukla (MR-07452L)	-	17-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
P Pandit (MR-07458M)	-	28-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
MS Kidwai (MR-07381P)	-	01-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
JM Jayaprakash (MR-07200Y)	-	06-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
SD Poddar (MR-07310N)	-	08-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
BR Sreejith (MR-07314K)	-	08-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14
VK Naik (MR-07201F)	-	09-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 16-05-14
RA Shetty (MR-07315M)	-	14-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-05-14
Sehdev Singh (MR-07600L)	-	14-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-05-14
R Kaur (MR-07369N)	-	15-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 28-05-14
BK Nayak (MR-07009X)	-	23-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-14
TK Rath (MR-07599F)	-	23-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-06-14
A Sreenivas (MR-06804L)	-	27-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-06-14
IV Nagesh (MR-07193N)	-	28-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-06-14
Vikram Patra (MR-07316P)	-	30-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-06-14
KV Radhakrishna (MR-07305H)	-	03-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-06-14

P Suresh (MR-07519Y)	-	04-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-06-14
M Tandon (MR-07317X)	-	06-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-14
D Dutta (MR-07383A)	-	06-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-14
DP Prashantha (MR-07217 M)	-	10-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-07-14
SP Sharma (MR-07010M)	-	13-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-07-14
RPS Tomar (MR-07614L)	-	13-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-07-14
S Mehrotra (MR-06657N)	-	23-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-07-14
Arun Kumar (MR-07306L)	-	11-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-07-14
C Banerjee (MR-07610P)	-	23-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-14
MH Faiz Ahmed (MR-06667X)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-08-14
PK Sahoo (MR-06671A)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
RK Singhal (MR-06674N)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
KN Ghosal (MR-06677F)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
US Garg (MR-06682M)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
BA Muthanna (MR-06688N)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
S Bhattacharya (MR-06689W)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
M Banerjee (MR-07230W)	-	06-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14
AK Singh (MR-07195Y)	-	17-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-09-14
Poonam Raj (MR-06809K)	-	20-06-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14

## Lt Col to Colonel (Time Scale)

MR-06713F	LT COL	MUKUL GARG	22 OCT 2014
MR-06153A	LT COL	TATHAGATA BOSE	16 JUN 2015
MR-06312M	LT COL	SANJAY JHA	19 JUN 2015
MR-07219X	LT COL	AK BARARA	14 JUL 2015

RK RANYAL  
Air Cmde  
Dy DGAFMS (HR)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 15, dated 28th December 2015—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
To be Substantive Brigadier

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-42842	A/BRIG	SUSHIL SHARMA	gren	26.04.13	26.04.13 with seniority from 01.01.12 without effect on pay and pension.
IC-42954	A/BRIG	PROMOD KUMAR A	JAK RIF	18.10.13	21.01.14 with seniority from 01.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43258	A/BRIG	SV BHASKAR, VrC	JAK RIF	25.10.13	01.02.14 with seniority from 01.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43376	A/BRIG	SANJIV DUTT	JAK LI	26.04.13	01.02.14 with seniority from 01.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43751	A/BRIG	BS AUJLA	MAHAR	26.04.13	01.02.14 with seniority from 02.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43768	A/BRIG	MUKESH RASTOGI	RAJPUT	03.05.13	01.02.14 with seniority from 02.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43813	A/BRIG	KBS BHIMRAJ	MADRAS	03.05.13	01.02.14 with seniority from 02.01.12 without effect on pay and pension.
IC-43822	A/BRIG	NR BABU	PUNJAB	06.06.14	06.06.14 with seniority from 02.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44060	A/BRIG	ANIL GAUTAM	AAD	20.06.14	26.06.14 with seniority from 03.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44072	A/BRIG	K BHARDWAJ	ARTY	16.03.14	16.03.14 with seniority from 03.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44121	A/BRIG	VN SAWANT	MARATHA LI	10.05.13	21.02.14 with seniority from 04.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-44224	A/BRIG	R BUTALIA	ARTY	15.02.13	01.03.14 with seniority from 04.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44266	A/BRIG	A GANGULY	ARTY	15.02.13	01.03.14 with seniority from 04.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44327	A/BRIG	SI KHAN	AAD	20.06.14	20.06.14 with seniority from 04.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45577	A/BRIG	GAUTAM GANGULY	GREN	10.05.13	01.03.14 with seniority from 05.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45677	A/BRIG	SUNIL KUMAR , SM	NAGA	10.05.13	01.03.14 with seniority from 05.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45688	A/BRIG	SALIL SHARMA	ARMD	01.01.14	03.03.14 with seniority from 05.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45692	A/BRIG	MANOJ MOHAN	SIKH	07.06.13	07.03.14 with seniority from 05.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45712	A/BRIG	DEVENDRA SINGH	JAG	20.07.13	20.03.14 with seniority from 06.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45714	A/BRIG	YS GAHLAUT	AOC	16.06.14	16.06.14 with seniority from 06.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45767	A/BRIG	NARENDER SINGH	SIKH	07.06.13	01.04.14 with seniority from 06.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45770	A/BRIG	DK AHLUWALIA	JAG	21.07.13	01.04.14 with seniority from 06.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45787	A/BRIG	VIPIN CHAKRAWARTI	JAG	09.11.13	01.04.14 with seniority from 07.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44473	A/BRIG	R MURUGAN	MECH INF	01.08.14	01.08.14 with seniority from 07.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44474	A/BRIG	RR RAINA	DOGRA	07.06.13	01.04.14 with seniority from 07.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44475	A/BRIG	A BHANOT	ARMD	01.01.14	01.04.14 with seniority from 07.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44477	A/BRIG	VIJAY SINGH, VSM	ARMD	01.01.14	01.04.14 with seniority from 08.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-44498	A/BRIG	RC TIWARI	KUMAON	07.06.13	01.04.14 with seniority from 08.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44500	A/BRIG	VP SINGH	ENGRS	01.11.14	01.11.14 with seniority from 08.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44501	A/BRIG	AK VERMA	GARH RIF	13.06.13	01.04.14 with seniority from 08.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44502	A/BRIG	US SENGUPTA	EME	24.10.14	24.10.14 with seniority from 09.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44506	A/BRIG	RS DADWAL, VSM	JAK RIF	05.07.13	01.05.14 with seniority from 09.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44507	A/BRIG	VINEY HANNA	AAD	24.06.14	24.06.14 with seniority from 09.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44508	A/BRIG	AK SHARMA, VrC	AOC	31.07.14	31.07.14 with seniority from 10.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44509	A/BRIG	SUYASH SHARMA	SIGS	01.05.14	01.05.14 with seniority from 10.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44510	A/BRIG	RAJIV SETHI	ARTY	15.02.13	01.05.14 with seniority from 10.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44513	A/BRIG	RAMESH BALAN	SIGS	01.07.14	01.07.14 with seniority from 10.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44515	A/BRIG	V SREEHARI, SC	PARA	05.07.13	01.05.14 with seniority from 11.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44516	A/BRIG	SUKHJINDER SINGH, VSM	ASC	01.09.13	19.05.14 with seniority from 11.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44517	A/BRIG	A SHARMA	ARTY	15.02.13	19.05.14 with seniority from 11.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44522	A/BRIG	SS MISHRA	AOC	31.07.14	31.07.14 with seniority from 11.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44525	A/BRIG	SANJEEV DOGRA	JAT	05.07.13	23.05.14 with seniority from 12.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44526	A/BRIG	AJAI SINGH	GARH RIF	05.07.13	27.05.14 with seniority from 12.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44539	A/BRIG	DAB UDAY KUMAR	ARTY	15.02.13	01.06.14 with seniority from 12.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-44545	A/BRIG	A SENGUPTA	PUNJAB	05.07.13	01.06.14 with seniority from 13.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44546	A/BRIG	SK SENGAR	SIKH LI	05.07.13	01.06.14 with seniority from 13.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44547	A/BRIG	RK SACHDEVA	ENGRS	01.11.14	01.11.14 with seniority from 13.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44552	A/BRIG	RAGHU SRINIVASAN	ENGRS	01.01.15	01.01.15 with seniority from 13.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44554	A/BRIG	SUKRIT CHADAH, SM	MECH INF	01.09.14	01.09.14 with seniority from 14.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44560	A/BRIG	AMRIK SINGH	SIGS	01.10.14	01.10.14 with seniority from 14.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44563	A/BRIG	SB KUMAR, SM	RAJPUT	05.07.13	01.07.14 with seniority from 14.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44564	A/BRIG	YP KHANDURI	JAK LI	05.07.13	01.07.14 with seniority from 14.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44569	A/BRIG	PIYUSH GUPTA	GUARDS	01.01.15	01.01.15 with seniority from 15.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44571	A/BRIG	TPS WADHAWA	ENGRS	01.01.15	01.01.15 with seniority from 15.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44572	A/BRIG	S THAKARAN	GARH RIF	19.07.13	01.07.14 with seniority from 15.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44573	A/BRIG	SK JHA	ASSAM	26.07.13	01.07.14 with seniority from 15.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44574	A/BRIG	S BHADAURIA	NAGA	26.07.13	01.07.14 with seniority from 16.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44576	A/BRIG	NAVJOT SINGH	SIGS	01.10.14	01.10.14 with seniority from 16.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44587	A/BRIG	A LOOMBA	ARMD	01.01.14	01.07.14 with seniority from 16.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44595	A/BRIG	V KUMAR	ASC	01.09.13	01.07.14 with seniority from 16.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-44598	A/BRIG	RK BHATIA	INT	07.10.13	05.07.14 with seniority from 17.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44603	A/BRIG	V KASHYAP	ARMD	21.03.14	23.07.14 with seniority from 17.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44605	A/BRIG	BK RATTAN PAL	JAK RIF	26.07.13	01.08.14 with seniority from 17.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44611	A/BRIG	RP SINGH	ARTY	22.02.13	01.08.14 with seniority from 17.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44618	A/BRIG	HARISH KUKREJA	ARTY	22.02.13	01.08.14 with seniority from 18.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44619	A/BRIG	PS GOTHRA	MADRAS	26.07.13	01.08.14 with seniority from 18.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44626	A/BRIG	NK GOEL	1 GR	25.10.13	05.08.14 with seniority from 18.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44646	A/BRIG	JB SINGH	ARTY	26.02.13	01.09.14 with seniority from 19.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44654	A/BRIG	DS SHISHODIA	JAT	16.08.13	01.09.14 with seniority from 19.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44658	A/BRIG	SS AHLAWAT	ASC	01.01.14	01.09.14 with seniority from 19.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44668	A/BRIG	SK PRASAD	ARTY	01.03.13	01.09.14 with seniority from 19.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44670	A/BRIG	VANKETESH SHARMA	ARTY	01.03.13	01.09.14 with seniority from 20.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44689	A/BRIG	JS BHARDWAJ	MADRAS	16.08.13	01.09.14 with seniority from 20.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44694	A/BRIG	A CHOUDHARY, VrC	ASC	01.02.14	01.09.14 with seniority from 20.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44708	A/BRIG	R SHARMA	ARTY	01.03.13	01.09.14 with seniority from 20.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44712	A/BRIG	SK BAKSHI	ASC	01.03.14	01.09.14 with seniority from 21.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44713	A/BRIG	AS DHILLON, SM	ARMD	01.04.14	01.09.14 with seniority from 21.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-44716	A/BRIG	JB SINGH	BIHAR	16.08.13	07.09.14 with seniority from 21.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44727	A/BRIG	SANJEEV YADAV	ARTY	01.03.13	08.09.14 with seniority from 21.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44729	A/BRIG	PS SEHRAWAT, SM **	GUARDS	01.01.15	01.01.15 with seniority from 22.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44736	A/BRIG	SANJAY MAINI	ARMD	02.05.14	08.09.14 with seniority from 22.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44746	A/BRIG	SS SANDHU	ARTY	01.03.13	12.09.14 with seniority from 22.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44749	A/BRIG	RK WASON	EME	24.10.14	24.10.14 with seniority from 22.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44806	A/BRIG	SANJEEV SONI	PUNJAB	16.08.13	19.09.14 with seniority from 23.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44808	A/BRIG	S BHARGAVA	ARTY	05.06.13	01.10.14 with seniority from 23.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44812	A/BRIG	SS BAJAJ	RAJ RIF	16.08.13	01.10.14 with seniority from 23.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44570	A/BRIG	NS KHROUD	ARTY	15.02.13	01.10.14 with seniority from 23.01.12 without effect on pay and pension.
IC-44607	A/BRIG	SK DEY	ARTY	22.02.13	01.10.14 with seniority from 24.01.12 without effect on pay and pension.
IC-48874	A/BRIG	JALEEL	ENGRS	01.02.15	01.02.15 with seniority from 24.01.12 without effect on pay and pension.
IC-48886	A/BRIG	K SHANKAR	SIGS	01.11.14	01.11.14 with seniority from 24.01.12 without effect on pay and pension.
IC-48900	A/BRIG	MUKESH BANSAL	SIGS	01.11.14	01.11.14 with seniority from 25.01.12 without effect on pay and pension.
IC-48866	A/BRIG	PARITOSH SHAH	ENGRS	01.02.15	01.02.15 with seniority from 25.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45795	A/BRIG	VIKRAM SINGH	GRENADIERS	16.08.13	29.10.14 with seniority from 25.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-45797	A/BRIG	ANIL BENIWAL	LADAKH SCOUTS	16.08.13	01.11.14 with seniority from 25.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45798	A/BRIG	VS SANKHYAN	GUARDS	16.08.13	01.11.14 with seniority from 26.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45807	A/BRIG	D SHRIVASTAVA	JAK LI	25.10.13	01.11.14 with seniority from 26.01.12 without effect on pay and pension.
IC-45806	A/BRIG	SN DALVI, SM	MAHAR	25.10.13	01.11.14 with seniority from 26.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47002	A/BRIG	JS MANGAT	ARMD	02.05.14	01.11.14 with seniority from 26.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47003	A/BRIG	D SHARMA	ARMD	01.06.14	01.11.14 with seniority from 27.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47004	A/BRIG	PS SHEKHAWAT	MECH INF	01.03.15	01.03.15 with seniority from 27.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47013	A/BRIG	DEEPAK MEHRA, KC	5 GR	25.10.13	01.11.14 with seniority from 27.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47020	A/BRIG	DS RANA, SM	GARH RIF	25.10.13	01.11.14 with seniority from 27.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47023	A/BRIG	NS SARNA	ARTY	01.03.13	01.11.14 with seniority from 28.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47025	A/BRIG	SANDEEP SEHGAL	JAT	25.10.13	01.11.14 with seniority from 28.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47057	A/BRIG	M AGGARWAL	ARTY	26.07.13	01.12.14 with seniority from 30.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47058	A/BRIG	SATBIR SINGH, SM **	JAT	25.10.13	01.12.14 with seniority from 30.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47060	A/BRIG	N NANDAN	ARTY (GC)	21.11.13	01.12.14 with seniority from 30.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47061	A/BRIG	V SHARMA	AAD	01.09.14	01.12.14 with seniority from 31.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47064	A/BRIG	M NATARAJAN, SC	BIHAR	25.10.13	01.12.14 with seniority from 31.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47070	A/BRIG	AM BAPAT	9 GR	25.10.13	01.12.14 with seniority from 31.01.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-47072	A/BRIG	RP SINGH	RAJ RIF	01.11.13	01.12.14 with seniority from 31.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47076	A/BRIG	RAKESH KAPOOR	ARMD	01.07.14	01.12.14 with seniority from 01.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47082	A/BRIG	DS SAINI, VSM	RAJPUT	25.10.13	01.12.14 with seniority from 01.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47099	A/BRIG	RK GAIKWAD	ASSAM	14.02.14	01.12.14 with seniority from 01.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47153	A/BRIG	R SANYAL	SIGS	01.03.15	01.03.15 with seniority from 04.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47208	A/BRIG	RANJAN MAHAJAN	RAJ RIF	14.02.14	01.01.15 with seniority from 05.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47220	A/BRIG	AMIT	EME	02.12.14	01.01.15 with seniority from 05.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47247	A/BRIG	P PANDEY, VSM	SIKH	14.02.14	28.01.15 with seniority from 06.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47253	A/BRIG	G JOSHI, SM	GARH RIF	14.02.14	01.02.15 with seniority from 06.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47263	A/BRIG	R THAKUR, SM, VSM	MARATHA LI	14.02.14	01.02.15 with seniority from 06.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47298	A/BRIG	RAVINDRA SINGH, SM	SIKH	14.02.14	01.02.15 with seniority from 07.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47318	A/BRIG	S KADIAN	RAJPUT	14.02.14	16.02.15 with seniority from 07.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47354	A/BRIG	GS SANDHU, SM	AOC	29.01.15	01.03.15 with seniority from 08.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47372	A/BRIG	RR SHARMA	ARTY	21.11.13	01.03.15 with seniority from 08.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47407	A/BRIG	BS JAKHAR	DOGRA	14.02.14	01.03.15 with seniority from 08.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47410	A/BRIG	SANJAY BAWEJA	ASSAM	21.02.14	01.03.15 with seniority from 09.02.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-47038	A/BRIG	SN TIWARI	PARA	14.02.14	01.03.15 with seniority from 09.02.12 without effect on pay and pension.
IC-49349	A/BRIG	VINEET GAUR	EME	01.01.15	26.03.15 with seniority from 10.02.12 without effect on pay and pension.
IC-43671	A/BRIG	RK CHHIKARA, SM	JAK RIF	06.06.14	06.06.14 with seniority from 02.01.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN  
Dy Dir MS(X)

**REGULAR ARMY**  
**MILITARY NURSING SERVICE**  
**(PERMANENT COMMISSION)**

No. 16, dated 29th December 2015—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) Seleena T C	NR-18699M	15.12.2014

Lt to Capt

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
CAPT	JYOTI SHARMA	NR 22851M	01/03/2015
CAPT	PREETI PRAJAPATI	NR 22852P	01/03/2015
CAPT	MEENAL UPADHYAY	NR 22853X	01/03/2015
CAPT	MAHIMA SHUKLA	NR 22854A	01/03/2015
CAPT	SEENA MATHEW	NR 22855H	01/03/2015
CAPT	RUPA	NR 22856L	01/03/2015
CAPT	SANJIDA BEGUM	NR 22857N	01/03/2015
CAPT	CHANCHAL SINGH	NR 22858W	01/03/2015
CAPT	MANISHA RAI	NR 22859Y	01/03/2015
CAPT	PRITI	NR 22860N	01/03/2015
CAPT	SANGEETA SINGH	NR 22861W	01/03/2015
CAPT	ANURADHA KUMARI	NR 22862Y	01/03/2015
CAPT	SONI KUMARI	NR 22863F	01/03/2015
CAPT	POOJA RAI	NR 22864K	01/03/2015
CAPT	MANJU LATA	NR 22865M	01/03/2015
CAPT	POONAM	NR 22866P	01/03/2015

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
CAPT	PRATIMA PANDEY	NR 22867X	01/03/2015
CAPT	JYOTI YADAV	NR 22868A	01/03/2015
CAPT	PARUL THAPA	NR 22869H	01/03/2015
CAPT	NEEHARIKA HARISH	NR 22871A	01/03/2015
CAPT	SRUTHY SHANKAR K V	NR 22872H	01/03/2015
CAPT	AMRITA KUMARI	NR 22873L	01/03/2015
CAPT	ARCHANA VERMA	NR 22874N	01/03/2015
CAPT	BABITA KUMARI	NR 22875W	01/03/2015
CAPT	AMITA DEVI	NR 22876Y	01/03/2015
CAPT	NAZNEEN KHAN	NR 22877F	01/03/2015
CAPT	RINKU KUMARI	NR 22878K	01/03/2015
CAPT	NIRMALA THAPA	NR 22879M	01/03/2015
CAPT	VINITA SHARMA	NR 22880F	01/03/2015
CAPT	MANJU	NR 22881K	01/03/2015
CAPT	DEEPIKA MUNDETIYA	NR 22882M	01/03/2015
CAPT	DEEPIKA	NR 22883P	01/03/2015
CAPT	SHWETA WALIA	NR 22884X	01/03/2015
CAPT	PREETY BHARADWAJ	NR 22885A	01/03/2015
CAPT	ROSHNI SONI	NR 22886H	01/03/2015
CAPT	JIJINA J	NR 22887L	01/03/2015
CAPT	DIVYA B	NR 22888N	01/03/2015
CAPT	SMITA BARONIA	NR 22889W	01/03/2015
CAPT	HARSHA SHRIVASTAV	NR 22890L	01/03/2015
CAPT	SARITA KASHYAP	NR 22891N	01/03/2015
CAPT	AKANKSHA KATIYAR	NR 22892W	01/03/2015
CAPT	KUMARI KAVITA CHAHAR	NR 22893Y	01/03/2015
CAPT	BHARTI MEENA	NR 22894F	01/03/2015
CAPT	ASHA TIWARI	NR 22895K	01/03/2015
CAPT	DEEPIKA SHUKLA	NR 22896M	01/03/2015
CAPT	KAVITA CHAUDHARY	NR 22897P	01/03/2015
CAPT	SANJU BHATT	NR 22898X	01/03/2015

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
CAPT	NISHA SINGH	NR 22899A	01/03/2015
CAPT	MEENU GOYAL	NR 22900K	01/03/2015
CAPT	RINKU TAMANG	NR 22901M	01/03/2015
CAPT	DEEPIKA KUMARI	NR 22902P	01/03/2015
CAPT	PREMA SUMAN	NR 22903X	01/03/2015
CAPT	PRABHA DEVI	NR 22904A	01/03/2015
CAPT	POOJA PRADHAN	NR 22905H	01/03/2015
CAPT	SAPNA SHARMA	NR 22906L	01/03/2015
CAPT	GOVINDI DEVI	NR 22907N	01/03/2015
CAPT	POOJA	NR 22908W	01/03/2015
CAPT	NIDHI THAPA	NR 22909Y	01/03/2015
CAPT	PHOOL KUMARI	NR 22910N	01/03/2015
CAPT	KAVITA	NR 22911W	01/03/2015
CAPT	IROM MEMOLI DEVI	NR 22912Y	01/03/2015
CAPT	PURABITA SARKAR	NR 22913F	01/03/2015
CAPT	ANITA DHAUNI	NR 22914K	01/03/2015
CAPT	PREETY SINGH	NR 22915M	01/03/2015
CAPT	SHIVA DEVI	NR 22916P	01/03/2015
CAPT	MANJU SINGH	NR 22917X	01/03/2015
CAPT	MAMTA RANI	NR 22918A	01/03/2015
CAPT	RITE SHAKYA	NR 22919H	01/03/2015
CAPT	SUNITA DUTTA	NR 22920X	01/03/2015
CAPT	DEVANJANA GHOSHAL	NS 22921A	01/03/2015
CAPT	PRATIBHA KUMARI	NS 22922H	01/03/2015
CAPT	REKHA KUMARI	NS 22923L	01/03/2015
CAPT	PRABHA YADAV	NS 22924N	01/03/2015
CAPT	NEHA BANKOTI	NS 22925W	01/03/2015
CAPT	MADHULATA	NS 22926Y	01/03/2015
CAPT	SHIWANGI BAJPAI	NS 22927F	01/03/2015
CAPT	ANJU CHANDRAN	NS 22928K	01/03/2015
CAPT	KUSUM VISHNOI	NS 22929M	01/03/2015
CAPT	MANISHA KUMARI	NS 22930F	01/03/2015

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
CAPT	PALLAVI SINGH	NS 22931K	01/03/2015
CAPT	NISHA SHARMA	NS 22932M	01/03/2015
CAPT	AKHILA A S	NS 22933P	01/03/2015
CAPT	ARCHANA BUGALIA	NS 22934X	01/03/2015
CAPT	DURGA RANA	NS 22935A	01/03/2015
CAPT	MONIKA CHAUDHARY	NS 22936H	01/03/2015
CAPT	RAKHI BAURAI	NS 22937L	01/03/2015
CAPT	NISHA S N	NS 22938N	01/03/2015
CAPT	ASMA BEGUM	NS 22939W	01/03/2015
CAPT	AMANDEEP KAUR	NS 22940L	01/03/2015
CAPT	ANU YADAV	NS 22941N	01/03/2015
CAPT	SANCHITA	NS 22942W	01/03/2015
CAPT	RASHMI TIWARI	NS 22943Y	01/03/2015
CAPT	SANDHYA KUMARI	NS 22944F	01/03/2015
CAPT	ATHIRA NJANESAN	NS 22945K	01/03/2015
CAPT	BABITA CHANDOLA	NS 22946M	01/03/2015
CAPT	SWATI	NS 22947P	01/03/2015
CAPT	SHABNAM	NS 22948X	01/03/2015
CAPT	IRAM SHMREEN	NS 22949A	01/03/2015
CAPT	HARDEEP KAUR	NS 22950P	01/03/2015
CAPT	MEENAKSHI SHARMA	NS 22951X	01/03/2015
CAPT	SILPA V S	NS 22952A	01/03/2015
CAPT	ARTI SINGH KUSHWAHA	NS 22953H	01/03/2015
CAPT	ANINDITA CHAWDHARY	NS 22954L	01/03/2015
CAPT	SHINY SHARMA	NS 22955N	01/03/2015
CAPT	MEENA KUMARI	NS 22956W	01/03/2015
CAPT	CHHAYA	NS 22957Y	01/03/2015
CAPT	ANSU S	NS 22958F	01/03/2015
CAPT	MEENAKSHI	NS 22959K	01/03/2015
CAPT	REKHA BAGHELA	NS 22960Y	01/03/2015
CAPT	ANAMIKA YADAV	NS 22961F	01/03/2015

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
CAPT	REVATHI SANKAR	NS 22962K	01/03/2015
CAPT	GOLDI MISHRA	NS 22963M	01/03/2015
CAPT	RASHMI KUMARI	NS 22964P	01/03/2015
CAPT	NEHA SINGH	NS 22965X	01/03/2015
CAPT	C DIVYA RAO	NS 22966A	01/03/2015
CAPT	ASWATHY KABEER	NS 22967H	01/03/2015

SUSHILA SHAHI  
Maj Gen  
Addl DGMNS

No. 17, dated 29th December 2015— The President is pleased to make the following promotion :-

REGULAR ARMY  
CORPS OF ENGINEERS  
MADRAS ENGINEER GROUP

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion/Seniority
------------	------	-------	---

To be Substantive Sub Maj Clks (Sd)

Sub/Clk (SD)	Yunus S	JC308516W	03/06/2015 @
Sub/Clk (SD)	Durga Dat Pandey	JC308524P	03/06/2015 #
Sub/Clk (SD)	Balvir Singh	JC308549F	02/06/2015 #
Sub/Clk (SD)	Suresh Kumar	JC308566F	02/06/2015 #
Sub/Clk (SD)	Ram Kumar	JC308584K	02/06/2015 #
Sub/Clk (SD)	Manoj KM	JC308586P	04/06/2015 #
Sub/Clk (SD)	Ghan Shyam Singh	JC308611H	02/06/2015 #

@ Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 May 2015 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allce.

To be Substantive Sub Maj (Gd)

Sub (GD)	R Jayaprasada Rao	JC309107P	01/06/2015
Sub (GD)	Manjunatha BC	JC309104F	01/06/2015

To be Substantive Sub Clks (SD)

Nb Sub/Clk (SD)	Pardeep Chand	JC310084L	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Sankar Subbu M	JC310085N	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Joseph KR	JC310086W	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Jai Prakash Mishra	JC310087Y	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Subodh Kumar Singh	JC310088F	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Ningappa Savadatti	JC310089K	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Lakhbir Singh	JC310091F	01/06/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Shashi Bhushan Dwivedi	JC310092K	01/06/2015

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion/Seniority
------------	------	-------	---

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD)	Nagesha A	JC310148L	01/06/2015 @
Nb Sub (GD)	Shekhar K	JC310372X	01/06/2015 &
Nb Sub (GD)	Kancharla Venkata Ramana	JC310414Y	01/06/2015 #
Nb Sub (GD)	K Palanivel	JC310465M	01/06/2015 \$
Nb Sub (GD)	Anil Kumar	JC310468A	01/06/2015 \$
Nb Sub (GD)	Paranthaman S	JC310489W	01/06/2015 \$
Nb Sub (GD)	Velmurugan S	JC310497P	01/06/2015
Nb Sub (GD)	Ranga Sateesh	JC310498X	01/06/2015
Nb Sub (GD)	U Soma Sekhar	JC310499A	01/06/2015
Nb Sub (GD)	M Sanjeevulu	JC310501M	01/06/2015
Nb Sub (GD)	Ambati Papinaidu	JC310502P	01/06/2015
Nb Sub (GD)	KS Antony Xaviour	JC310503X	08/06/2015 *
Nb Sub (GD)	M Murugan	JC310504A	01/06/2015
Nb Sub (GD)	Shaji MK	JC310505H	17/06/2015 *

@ Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 02 DEC 2014 without effect on pay and allce.

&Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 FEB 2015 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 MAR 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 APR 2015 without effect on pay and allce

\*Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 JUN 2015 without effect on pay and allce

## To be Substantive Sub Maj Clks (SD)

Sub/Clk (SD)	Naizam TJ	JC308517Y	05/05/2015 @
Sub/Clk (SD)	Moti Gir Goswami	JC308519K	02/05/2015 @

@ Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 May 2015 without effect on pay and allce.

## To be Substantive Sub Clks (SD)

Nb Sub/Clk (SD)	Kumar D	JC309836X	01/05/2015 #
Nb Sub/Clk (SD)	Shailesh Kumar Nayak	JC310015P	01/05/2015
Nb Sub/Clk (SD)	V Deva Doss	JC310076M	01/05/2015
Nb Sub/Clk (SD)	S Ravichandran	JC310078X	01/05/2015
Nb Sub/Clk (SD)	K Nalla Thambi	JC310079A	01/05/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Dakshinamoorthi A	JC310082A	01/05/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Vinay Pratap	JC310083H	01/05/2015

# Granted Seniority in the rank of Sub Clk(SD) wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allce.

## To be Substantive Sub SKST

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion/Seniority
------------	------	-------	---

Nb Sub/SKT A Thamil Selvam JC332300N 01/05/2015

Nb Sub/SKT Sukhvinder Singh JC332108K 01/05/2015

## To be Substantive Sub RT

Nb Sub/RT Awanish Kumar Awasthi JC307928L 01/05/2015

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Mahadeo Patil JC310473L 01/04/2015

Nb Sub (GD) Shaik Mastanvali JC310486H 15/04/2015 \$

Nb Sub (GD) Anil Kumar S JC310490L 01/04/2015

Nb Sub (GD) Jasti VN Raju JC310494F 01/04/2015

Nb Sub (GD) Dinesh Babu SS JC310127P 06/04/2015 @

Nb Sub (GD) Sreerag K JC310323P 01/05/2015 &

Nb Sub (GD) Muttappa JC310439L 01/05/2015 #

Nb Sub (GD) Premakumar V JC310442L 01/05/2015 #

Nb Sub (GD) S Gunakaran JC310459Y 01/05/2015 \$

@ Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 JUN 2014 without effect on pay and allce.

& Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 02 DEC 2014 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 MAR 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 APR 2015 without effect on pay and allce

## To be Substantive Sub Maj Clks (SD)

Sub/Clk (SD) Satheesh Kumar M JC308550W 06/07//2015 @

Sub/Clk (SD) Shijimon KV JC308614W 02/07/2015 #

Sub/Clk (SD) Sohan Lal Thagriya JC308616F 08/07/2015 #

Sub/Clk (SD) Sagayarayan MS JC308640X 02/07/2015 #

Sub/Clk (SD) Ajay Kumar JC308643L 03/08/2015 \$

Sub/Clk (SD) Narayan Mondal JC308658N 03/08/2015 \$

Sub/Clk (SD) A Palani Chamy JC308664F 01/08/2015

Sub/Clk (SD) S Mohan Rao JC308665K 10/08/2015 \$

@ Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Sub Maj Clk(SD) wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allce.

## To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) KP Madhu JC309109A 04/07/2015 #

Sub (GD) S Habeeb Ahmed JC309090M 06/07/2015 #

Sub (GD) Jayason George JC309101N 01/08/2015

Sub (GD) B Venkata Ramanaiah JC309103Y 01/08/2015

Sub (GD) Dinesh Babu MP JC309098Y 03/08/2015 \$

# Granted Seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allce.

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion/Seniority
------------	------	-------	---

## To be Substantive Sub Clks (SD)

Nb Sub/Clk (SD)	Bote Anil Baban	JC309918A	02/03/2015 @
Nb Sub/Clk (SD)	Prasanta Mandal	JC309953H	01/04/2015
Nb Sub/Clk (SD)	JH Babu	JC309985L	01/04/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Awadhesh Kumar	JC310107F	01/07/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Todakar Shivaji Shankar	JC310108K	01/08/2015 \$
Nb Sub/Clk (SD)	S Balendran	JC310109M	01/07/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Varughese Michael	JC310110F	01/07/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Mahendra Kumar	JC310112M	01/07/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Biju PN	JC310120L	01/08/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Britto S	JC310121N	01/08/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Gujar Praphull Kumar Goraksha	JC310122W	01/08/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Kana Ram Bishnoi	JC310156K	01/08/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Thulasidharan Nair R	JC310158P	01/08/2015
Nb Sub/Clk (SD)	Nawab Singh Verma	JC310159X	03/08/2015 #
Nb Sub/Clk (SD)	Togi Kamaraju	JC310161P	01/08/2015

@ Granted Seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allce.

## To be Substantive Sub (SKT)

Nb Sub (SKT)	C Pravin Singh KB	JC332096A	01/07/2015
--------------	-------------------	-----------	------------

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD)	Rijesh Kumar MK	JC310462Y	01/04/2015
Nb Sub (GD)	Mallikarjun Tigadi	JC310517X	01/07/2015
Nb Sub (GD)	K Ashok Kumar	JC310402K	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Manne Ram Babu	JC310516P	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Yallappa Sidbvvagol	JC310518A	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Balasaheb Dharmoji	JC310519H	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Sebastian E O	JC310521A	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Jakka Rangaswamy	JC310522H	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Arokia Babu A	JC310523L	01/08/2015
Nb Sub (GD)	Seenu N	JC310524N	01/08/2015

## To be Substantive Sub (RT)

Nb Sub (GD)	Mohan Shyam Sharma	JC307927H	1/07/2015
-------------	--------------------	-----------	-----------

Rank/Trade	Name	Personnel No.		JC No Allotted	Dt of Promotion/ Seniority
------------	------	---------------	--	----------------	-------------------------------

## To Be Nb Sub Clk(SD)

Hav/Clk(SD)	Suresh R	15312918X	Now	JC 311429N	17/04/2015 @
Hav/Clk(SD)	A Raja Edward Kennedy	15313198N	Now	JC 311473X	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Madan Mohan	15313203N	Now	JC 311474A	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Dharminder Singh	15313226P	Now	JC 311475H	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Vineesh KP	15313229H	Now	JC 311476L	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Udaya Kumar R	15313267Y	Now	JC 311477N	01/05/2015

@ Granted seniority in the rank of Nb Sub(Clk SD) wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allce.

## To be Nb Sub (SKsT)

Hav/SKT	Kadegala Prakasa Rao	15311515L	Now	JC311471M	01/05/2015 \$
Hav/SKT	Sreenivasa Rao Morla	15313282N	Now	JC311472P	01/05/2015

\$ Granted Seniority in the rank of Nb Sub(SKsT) wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allce.

## To be Nb Sub (GD)

Hav (GD)	S Sree Ramalingam	15312193H	Now	JC311462L	01/04/2015
Hav (GD)	Sivaprasad R	15325627W	Now	JC311480N	01/05/2015 #
Hav (GD)	Rajesh V	15312383P	Now	JC311481W	01/05/2015
Hav (GD)	Rajagopalan Cheriyath	15312388N	Now	JC311482Y	01/05/2015
Hav (GD)	Yeragalla Nagaraju	15312402P	Now	JC311483F	01/05/2015
Hav (GD)	P Ragavan	15312409Y	Now	JC311484K	01/05/2015
Hav (GD)	Sajeev Kumar CP	15312420X	Now	JC311485M	01/05/2015

# Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allce

## To be Nb Sub Clk(SD)

Hav/Clk(SD)	Vara Prasad V	15313293A	Now	JC 311478W	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Elumalai R	15313299F	Now	JC 311479Y	01/05/2015
Hav/Clk(SD)	Adimoolam A	15313301N	Now	JC311486P	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	M Muniraj	15313314L	Now	JC311487X	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	Murthy C	15313415Y	Now	JC311489H	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	AE Rajasekaran	15313416F	Now	JC311490X	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	Ragunath J	15313422P	Now	JC311491A	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	K Mugunthan	15313441A	Now	JC311492H	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	G Lawrence Anbu Doss	15313444N	Now	JC311493L	01/06/2015

## To be Nb Sub (SKsT)

Hav/SKT	V Manikuttan Pillai	15313515K	Now	JC311494N	01/06/2015
---------	---------------------	-----------	-----	-----------	------------

## To be Nb Sub (GD)

Hav (GD)	Nagaraju P	15312204K	Now	JC311464W	01/04/2015
Hav (GD)	T Selvanayagam	15312512K	Now	JC311495W	01/06/2015

Rank/Trade	Name	Personnel No.		JC No Allotted	Dt of Promotion/Seniority
Hav (GD)	Velu R	15312445K	Now	JC311496Y	01/06/2015
Hav (GD)	B Selva Kumar	15312536N	Now	JC311497F	01/06/2015
Hav (GD)	Prakash Kareppagol	15312574K	Now	JC311498K	01/06/2015
Hav (GD)	Syed Ghose	15312639M	Now	JC311499M	01/06/2015
Hav (GD)	D Bhaskar Reddy	15312670Y	Now	JC311500W	01/06/2015
Hav (GD)	Praveen Gottumukkala	15312673M	Now	JC311501Y	01/06/2015
Hav (GD)	R Kumaran	15312692X	Now	JC311502F	01/06/2015
Hav (GD)	S Krishnamoorthy	15312758H	Now	JC311503K	01/06/2015
Hav (GD)	J Swaminathan	15312764W	Now	JC311504M	01/06/2015
Hav (GD)	Chinnappan D	15312765Y	Now	JC311505P	01/06/2015
Hav (GD)	A Thirumalai	15312785M	Now	JC311506X	01/06/2015
Hav (GD)	M Murugan	15312886A	Now	JC311507A	01/06/2015
Hav (GD)	James Joseph	15312898P	Now	JC311508H	01/06/2015
Hav (GD)	L Chandrasekaran	15313001M	Now	JC311509L	01/06/2015
Hav (GD)	Ramesh J	15313026Y	Now	JC311510A	01/06/2015
Hav (GD)	M Kubendran	15313054L	Now	JC311511H	01/06/2015
Hav (GD)	G Ramu	15313295L	Now	JC311512L	01/06/2015
To be Nb Sub Clk(SD)					
Hav/Clk(SD)	Bhika Ram	15313408H	Now	JC311488A	01/06/2015
Hav/Clk(SD)	Vijay Kumar Singh	15313473H	Now	JC311513N	01/07/2015
Hav/Clk(SD)	D Ravichandran	15310021P	Now	JC311514W	01/07/2015
Hav/Clk(SD)	Balbir Singh	15313336K	Now	JC311515Y	01/07/2015
Hav/Clk(SD)	L Mariappan	15313342X	Now	JC311516F	01/07/2015
Hav/Clk(SD)	S Suresh	15313341P	Now	JC311517K	01/07/2015
Hav/Clk (SD)	I Victor Emmanuel	15311371N	Now	JC 311523X	01/08/2015@
Hav/Clk (SD)	S Maria Arokiam	15311584F	Now	JC311524A	01/08/2015@
Hav/Clk (SD)	Pushparaj T	15313276A	Now	JC311525H	01/08/2015#
Hav/Clk (SD)	B Mohana Das	15311166M	Now	JC311526L	01/08/2015\$

@ Granted Seniority in the rank of Nb Sub Clk(SD) wef 07 Feb 2015 without effect on pay and allce.

# Granted Seniority in the rank of Nb Sub Clk(SD) wef 01 May 2015 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Nb Sub Clk(SD) wef 01 Jul 2015 without effect on pay and allce.

#### To be Nb Sub (GD)

Hav (GD)	Vinu V Kalarickal	15325858M	Now	JC311518M	01/07/2015
Hav (GD)	Shijo KJ	15330576X	Now	JC311519P	01/07/2015
Hav (GD)	Deelip Singh	15313339X	Now	JC311520K	01/07/2015
Hav (GD)	Kumaran G	15313430N	Now	JC311521M	01/07/2015
Hav (GD)	M Velu	15313446Y	Now	JC311527N	01/08/2015

Rank/Trade	Name	Personnel No.		JC No Allotted	Dt of Promotion/ Seniority
Hav (GD)	Rajan S	15313450F	Now	JC311528W	01/08/2015
Hav (GD)	Gopala Rao Japani	15313482K	Now	JC311529Y	01/08/2015
Hav (GD)	Raji P	15313361H	Now	JC311530N	01/08/2015
Hav (GD)	Sajeev PV	15313631M	Now	JC311531W	01/08/2015
Hav (GD)	Chinnappa Raj A	15313397F	Now	JC311632Y	01/08/2015
Hav (GD)	L Ravi	15313750H	Now	JC311533F	01/08/2015
Hav (GD)	Rajith Kumar KK	15313856P	Now	JC311534K	01/08/2015
Hav (GD)	Gajanan B	15313873P	Now	JC311535M	01/08/2015

## BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Maj (CLK SD)

Sub (CLK SD)	Shaligram Yadav	(JC-350324A)	01 <sup>st</sup> May 2015
Sub (CLK SD)	Bhushan Debnath	(JC-350326L)	01 <sup>st</sup> May 2015
Sub (CLK SD)	Babu KT	(JC-350327N)	01 <sup>st</sup> May 2015
Sub (CLK SD)	Shaji PG	(JC-350349M)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (CLK SD)	Nand Lal Kaushalia	(JC-350375N)	01 <sup>st</sup> July 2015
Sub (CLK SD)	Ramesh Chandra	(JC-350406H)	01 <sup>st</sup> July 2015
Sub (CLK SD)	Ram Gopal	(JC-350408N)	01 <sup>st</sup> Aug 2015

To be Subedar Maj (GD)

Sub (GD)	Kashmir Singh	(JC-350243A)	01 <sup>st</sup> Mar 2015
Sub (GD)	Nirmal Singh	(JC-350766Y)	01 <sup>st</sup> Mar 2015
Sub (GD)	Baldev Singh	(JC-350974N)	01 <sup>st</sup> May 2015
Sub (GD)	Khursheed Ali	(JC-350975W)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (GD)	Godhan Lal	(JC-350976Y)	29 <sup>th</sup> Jun 2015
Sub (GD)	Diwan Singh	(JC-350979M)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Sub (GD)	Girdhar Singh	(JC-351000F)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Sub (GD)	Viru Singh	(JC-351003P)	01 <sup>st</sup> Aug 2015

To be Subedar Maj (SKT)

Sub (SKT)	Chander Mohan	(JC-330715W)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (SKT)	Narayan Ram	(JC-331339N)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (SKT)	Birendra Singh	(JC-349924W)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (SKT)	Balveer Singh	(JC-349963P)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Sub (SKT)	Dhandedhar Prabhakar Shiv Ram	(JC-351303P)	01 <sup>st</sup> July 2015

(To be Subedar (GD))

Nb Sub (GD)	Dhokane Sanjay Pandurang	(JC-352276K)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Parma Nand	(JC-352279X)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Nirmal Singh	(JC-352298H)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Janakar Shankar Nana	(JC-352307Y)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Sapkal Nand Kishor Pandurang	(JC-352314P)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Bhosale Pramod Shripati	(JC-352319N)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Ugade Vasant Ishwar	(JC-352322N)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Nishan Singh	(JC-352320H)	05 <sup>th</sup> Apr 2015

Nb Sub (GD)	Kuldeep Singh	(JC-352221A)	13 <sup>th</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Babu Singh	(JC-352299L)	16 <sup>th</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Shivankar Sunil Bajirao	(JC-352316A)	28 <sup>th</sup> Apr 2015
Nb Sub (GD)	Dawinder Singh	(JC-352338Y)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Chikane Santosh Keshav	(JC-352339F)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Nikam Sunil Rustamrao	(JC-352345P)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Lal Bahadur Singh	(JC-352346X)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Pawar Balasheb Sakharam	(JC-352348H)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Satendra Kumar Vishwakarma	(JC-352351H)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Sukhdev Singh	(JC-352353N)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Mohd Irshad Ansari	(JC-352354W)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Upendra Nath Rai	(JC-352355Y)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Bhiungade Dagadu Ganpati	(JC-352357K)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Ved Prakash	(JC-352391K)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Suresh Kumar	(JC-352304L)	02 <sup>nd</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Gurmit Singh	(JC-352349L)	02 <sup>nd</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Gurmit Singh	(JC-352352L)	02 <sup>nd</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Udavant Manoj Sahebrao	(JC-352347A)	09 <sup>th</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Vijender Kumar	(JC-352289F)	15 <sup>th</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Nagendra Singh	(JC-352356F)	16 <sup>th</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Kuldip Singh	(JC-352220X)	20 <sup>th</sup> May 2015
Nb Sub (GD)	Nagpure Dilipkumar Govindrao	(JC-352358M)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Darshan Singh	(JC-352359P)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Babu Lal Pareek	(JC-352361M)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Kurban Hasan	(JC-352362P)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Daljit Singh	(JC-352364A)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Anekar Vitthal Rajaram	(JC-352365H)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Patil Bharat Hilal	(JC-352366K)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Lal Bahadur Singh Yadav	(JC-352367N)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Shankar Singh	(JC-352360K)	04 <sup>th</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Hawa Singh	(JC-352363X)	11 <sup>th</sup> Jun 2015
Nb Sub (GD)	Jadhav Nanaasaheb Tukaram	(JC-352368W)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Anil Kumar	(JC-352370N)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Bhosle Ganpat Vitthal	(JC-352371W)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Yogendra Singh Yadav	(JC-352373F)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Mahesh Singh Moodotiya	(JC-352374K)	01 <sup>st</sup> Jul 2015

Nb Sub (GD)	Chamkaur Singh	(JC-352375M)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Om Prakash Jogi	(JC-352377X)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Shinde Rajkumar Sahebrao	(JC-352378A)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Suryawanshi Manohar Asaram	(JC-352379H)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Shailendra Pratap Singh	(JC-352369Y)	02 <sup>nd</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Dahale Ravindra Suresh	(JC-352373Y)	03 <sup>rd</sup> Jul 2015
Nb Sub (GD)	Sohan Singh Chouhan	(JC-352397L)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Bahadur Singh	(JC-352398N)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	More Anil Atmaram	(JC-352399W)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Dilbagh Singh	(JC-352401H)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Mohd Erfan	(JC-352403N)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Parminder Singh	(JC-352404W)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Jaspal Singh	(JC-352420N)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Shashikant Yadava	(JC-352421W)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Mohd Yahiya Khan	(JC-352423F)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Avtar Singh	(JC-352445A)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Shinde Pramod Govind	(JC-352419Y)	02 <sup>nd</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Pingale Sayaji Namdev	(JC-352382H)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Pawar Mahadev Vaman	(JC-352402L)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Nimbalkar Sanjay Kumar C	(JC-352418W)	06 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (GD)	Chaugule Ishwara Sadashiv	(JC-352424K)	10 <sup>th</sup> Aug 2015

## To be Subedar (CLK SD)

Nb Sub (CLK SD)	Daljit Singh	(JC-351876A)	01 <sup>st</sup> Apr 2015
Nb Sub (CLK SD)	Mahesh Kumar Dass	(JC-351900L)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Vishnu Chandra Panda	(JC-351901N)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ravindra Singh Yadav	(JC-351919K)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Raj Kumar Patel	(JC-351924P)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Hari Ram Sharma	(JC-351926A)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Rajput Uma Shankar Singh Radhakrishna	(JC-352204A)	01 <sup>st</sup> May 2015
Nb Sub (CLK SD)	Parvin Kumar	(JC-351918F)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (CLK SD)	Mohamad Riyazuddin	(JC-351940M)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (CLK SD)	Sonu	(JC-352235A)	01 <sup>st</sup> Jun 2015
Nb Sub (CLK SD)	Karimullah Shaik	(JC-351941P)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Trilochana Mohanti	(JC-351943A)	01 <sup>st</sup> Jul 2015

Nb Sub (CLK SD)	Trilochan Singh Jaggi	(JC-351945L)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ghorpade Rajendra	(JC-351946N)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Mahesh Prasad Mishra	(JC-351947W)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ram Kishore Yadav	(JC-351948Y)	01 <sup>st</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Munna Lal Baghel	(JC-351963N)	02 <sup>nd</sup> Jul 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ram Chandra Shivhare	(JC-351086L)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (CLK SD)	Parvinder Singh	(JC-351944H)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ahiwale Vijay Dnyanu	(JC-351962L)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (CLK SD)	V N Shiji	(JC-351970K)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (CLK SD)	Ram Prakash	(JC-351973X)	01 <sup>st</sup> Aug 2015

## To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT)	Toradmal Bhanudas Sahebrao	(JC-352389M)	30 <sup>th</sup> Jul 2015
Nb Sub (SKT)	Patel Mukesh Bhai Kanaji Bhai	(JC-352915A)	01 <sup>st</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Manoj Kumar Mishra	(JC-352912M)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Jaya Kumar M	(JC-352922W)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	R Mohd Rafiq Raja	(JC-352676W)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Vishal Kumar	(JC-352710K)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Jitendra Singh	(JC-352933H)	03 <sup>rd</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Shende RamKrishna V	(JC-352188N)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Chaudhary Bapu Gajaram	(JC-352238N)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Bhapkar Hanumant Uttamrao	(JC-352388K)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Kanagaraj M K	(JC-352394X)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Gurmit Singh	(JC-352614W)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Anil Kumar Singh	(JC-352909M)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Syyad Reyaj Ahmed	(JC-352910F)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Palaskar Ramdas Nirvuti	(JC-352921N)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Jayendra Prasad	(JC-352925K)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Shridhar Sahoo	(JC-352926M)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Balwant Singh	(JC-352927P)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Aji Kumar V	(JC-352929A)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Khemendra Kumar	(JC-352931X)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	C Achyutha Reddy	(JC-352932A)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	P Chelladurai	(JC-352936W)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Hariom Sharma	(JC-352967W)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Digambar Gautam	(JC-353209L)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Syyad Jakeer Hussain	(JC-353211H)	04 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Josheph T	(JC-352680Y)	05 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Virendra Singh Dasila	(JC-352682K)	05 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Phool Chand	(JC-352393P)	06 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Murugesan G	(JC-352728F)	06 <sup>th</sup> Aug 2015

Nb Sub (SKT)	Anil Kumar	(JC-352914X)	06 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Arvind Kumar	(JC-352924F)	06 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	M Karunanithi	(JC-352390F)	07 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Kallam Sreenivasa Reddy	(JC-352917L)	07 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Jitendra Pratap	(JC-352187L)	10 <sup>th</sup> Aug 2015
Nb Sub (SKT)	Gade Ravindra Bajrang	(JC-352937Y)	12 <sup>th</sup> Aug 2015

To be Subedar (MUSN)

Nb Sub (MUSN)	Budhi Bal Thapa	(JC-352386Y)	23 <sup>rd</sup> Jun 2015
---------------	-----------------	--------------	---------------------------

To be Subedar (RT)

Nb Sub (RT)	Jagdeep Singh	(JC-349896P)	01 <sup>st</sup> May 2015
-------------	---------------	--------------	---------------------------

ANURAG SHARMA  
Under Secy

**ARMY BRANCH**

No. 18, dated 29th December 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

**REGULAR ARMY****ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

To be Substantive Subedar Major

1. Sub Maj S Murugesan (JC-826211F) 01 Aug 2015

To be Substantive Subedar

Sub	Basate Hanmant Bhimrao	(JC-826274K)	01 Mar 2015
Sub	Vinod Kumar	(JC-826260K)	02 Mar 2015/01 Mar 2015*
Sub	Deep Singh	(JC-826261M)	01 Apr 2015
Sub	Lakhwinder Singh	(JC-826262P)	01 Jul 2015
Sub	Ravasab Jibagol	(JC-826263X)	01 Aug 2015
Sub	Jagdish Kumar Choudhary	(JC-826265X)	01 Aug 2015
Sub	Chilgar Bibisen Sarjerao	(JC-826266L)	01 Sep 2015

\*Date of Seniority

To be Naib Subedar

BHM	Suresh Ganiger	No 14409777F	(Now JC-826312P)	01 Mar 2015
BHM	Chandra	No 2791722W	(Now JC-826313X)	02 Mar 2015/01 Mar 2015*
BHM	Virender Singh	No 13758731M	(Now JC-826314A)	01 Apr 2015
BHM	Ganesh Kumar	No 14407887X	(Now JC-826315H)	11 Jul 2015/01 Jul 2015*
BHM	Hijam Chandramani Singh	No 7778568Y	(Now JC-826316L)	01 Aug 2015
BHM	Dalvi Kailas Abaji	No 13620004P	(Now JC-826317N)	01 Aug 2015
BHM	Himanshu Negi	No 4076286M	(Now JC-826318W)	01 Sep 2015
BHM	Kamal Kishore Farroda	No 3187979H	(Now JC-826319Y)	01 Sep 2015

\*Date of Seniority

N B MANI  
Under Secy

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 19, dated 30th December 2015—The President is pleased to make the following promotion :-

Sh. A M Khedlekar to be Sr. Accounts Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.10.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/-.

Smt. Lalithamba Y to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 21.07.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. K P Sadan to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Smt. Hemavathy Francis to be Sr. Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. Suvro Banerjee to be Sr. Stores Officer - I, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.01.2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- .

RAJEEV RANJAN SINHA  
Dy Director (Pers)

## ARMY BRANCH

No. 20, dated 30th December 2015—the President is pleased to make the following appointments :-

## REGULAR ARMY

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

## CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC(T)-37 published in the Gazette of India dated 10 May 2014 under the heading “REGULAR ARMY” and sub-heading “SHORT SERVICE COMMISSION to be Lts” is hereby amended as under:-

For

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-45880N	RAMAKRISHNA	ENGRS	10-OCT-11

Read

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-45880N	H RAMAKRISHNA	ENGRS	10-OCT-11

PRADEEP GOVINDAN  
Lt Col  
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in